



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 26—मार्च 4, 2011 (फाल्गुन 7, 1932)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 26—MARCH 4, 2011 (PHALGUNA 7, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2011

सेना शाखा

सं. 74, दिनांक 25 जनवरी, 2011—राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष
70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 02 मार्च
2007 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 02 मार्च 2007 से स्थायी
कमीशन प्रदान किया जाता है :—

एसएस सं., आईसी सं., नाम व आर्म/सर्विस

एसएस-39648 (आईसी-65611एच) दीप चंद्र मलकानी, एएडी
उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :—

वेतन वृद्धि के लिए तारीख --02 मार्च 2002

पदोन्नति के लिए तारीख --02 नवम्बर 2002

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद
स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो

अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी
है।

वी एस रानडे
कर्नल

कर्नल सेना सचिव-7

सं. 75, दिनांक 25 जनवरी, 2011—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को
जिन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान किया गया था की पुष्टि उनके
नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

वैमानिक अभियांत्रिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर (एमएस) जाहन्वी मिलिंद (29163) एई (एल),
के मदन कुमार (29155) एई (एम), (एमएस) पुंनिता आसवाल
(29160) एई (एल), (एमएस) निताशा बंसल (29169) एई (एल),
(एमएस) दीपमाला गुप्ता (29168) एई (एल), (एमएस), डी एस
चौहान (29164) एई (एल), राज मोहन आर (29159) एई (एल),
पियुष कुमार (29157) एई (एल), रघु राम पाल्पति (29156)

आई (एम), (एमएस) के मानसी प्रकाश (29162) आई (एल),
(एमएस) पी शिरीषा (29165) आई (एल)--29 जून 2007 से प्रभावी

वी एम मार्टीकर
बिंग कमांडर
जेडीपीओ-3 (डी)

थल सेना शाखा

सं. 76, दिनांक 25 जनवरी, 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ब्रिगे (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

बी एस शर्मा (एमआर-03592ए), 01 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 26 मई 2010 से दी जाती है

प्रकाश सिंह (एमआर-03679एफ), 01 मार्च 2010, वेतन व पेंशन
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है

पी पी वर्मा (एमआर-04317एम), 01 जुलाई 2010, वेतन व पेंशन
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2010 से दी जाती है

डी एस पठानिया (एमआर-03927एम), 08 जुलाई 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2010 से दी
जाती है

ए डी माथुर (एमआर-04225ए), 05 जुलाई 2010, वेतन व पेंशन
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जुलाई 2010 से दी
जाती है

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर

ए पी सिंह (एमआर-04418ए), 10 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06 जनवरी 2010 से दी
जाती है

ए पी पंडित (एमआर-04510वाई), 01 फरवरी 2010, वेतन व पेंशन
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07 जनवरी 2010 से दी
जाती है

ए पी कामथ (एमआर-04843एल), 01 फरवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08 जनवरी 2010 से दी
जाती है

एम पी एस साहनी (एमआर-03922एन), 04 फरवरी 2010, वेतन
व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09 जनवरी 2010 से
दी जाती है

एन सी अरोरा (एमआर-04336एक्स), 18 जनवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20 जनवरी 2009 से दी
जाती है

पी के भटनागर (एमआर-04068वाई), 28 जनवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10 जनवरी 2010 से दी
जाती है

अरूण त्यागी (एमआर-05294एच), 01 फरवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 11 जनवरी 2010 से दी
जाती है

सी एस जोशी (एमआर-04654एफ), 06 फरवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12 जनवरी 2010 से दी
जाती है

आर गौरीशंकर (एमआर-03998एन), 28 जनवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15 जनवरी 2010 से दी
जाती है

संजीव चौपड़ा (एमआर-04142पी), 28 जनवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 16 जनवरी 2010 से दी
जाती है

श्रीमती राखी सिंह (एमआर-05622एल), 05 फरवरी 2010, वेतन
व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17 जनवरी 2010 से
दी जाती है

वी के श्रीवास्तवा (एमआर-04186एम), 16 फरवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19 जनवरी 2010 से दी
जाती है

आर ब्रजबासी (एमआर-04712ए), 09 फरवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 21 जनवरी 2010 से दी
जाती है

के वी बालि (एमआर-04767के), 28 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 22 जनवरी 2010 से दी जाती है

पी पुस्टी (एमआर-04768एम), 28 जनवरी 2010, वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23 जनवरी 2010 से दी जाती है

एन श्री नाथ (एमआर-05096एक्स), 28 जनवरी 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25 जनवरी 2010 से दी
जाती है

टी वी एस पी मूर्ति (एमआर-04347के), 09 जून 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2010 से दी
जाती है

एच एस मिन्हास (एमआर-05097ए), 08 जुलाई 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जुलाई 2010 से दी
जाती है

एच सी पाठक (एमआर-04803के), 01 जुलाई 2010, वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जुलाई 2010 से दी
जाती है

ए के धर (एमआर-04808एच), 08 जुलाई 2010, वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है

मुक्ती शर्मा (एमआर-05788एम), 19 जुलाई 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05 जुलाई 2010 से दी जाती है

टी के साहा (एमआर-05598ए), 15 अगस्त 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08 जुलाई 2010 से दी जाती है

डी के जैन (एमआर-05367के), 04 अगस्त 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है

यू के शर्मा (एमआर-04262एन), 06 सितम्बर 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 अगस्त 2010 से दी जाती है

सुधीर राय (एमआर-04265एफ), 06 सितम्बर 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04 अगस्त 2010 से दी जाती है

ए के शर्मा (एमआर-04267एम), 07 सितम्बर 2010, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18 अगस्त 2010 से दी जाती है

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

लेफ्टि कर्नल टी के चौधरी (एमआर-06292के), 30 जून 2010

लेफ्टि कर्नल से कर्नल के पद पर

लेफ्टि कर्नल पी भगत (एमआर-6446एल), 21 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल सुधीर गर्ग (एमआर-6445एच), 21 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल आर के झा (एमआर-6092एन), 23 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल जी मिश्रा (एमआर-5711के), 30 सितम्बर 2010

लेफ्टि कर्नल एस के जेना (एमआर-6447एन), 04 अक्टूबर 2010

लेफ्टि कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

एन एस नारायन (एमआर-6219एल), 15 सितम्बर 2009, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सेना शाखा

सं. 77, दिनांक 25 जनवरी, 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

आईसी सं., नाम, आर्म व सब्सटेंटिव तिथि

(आईसी-34563एम) ए के दास, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

(आईसी-39778पी) ए के गिडयाल, इन्फैन्ट्री, 13 जून 2007

(आईसी-40041एम) पी के शर्मा, एएससी, 19 दिसम्बर 2009

(आईसी-40392एफ) कगेश मित्तल, एसी, 12 जून 2008

(आईसी-40470एन) ए टी सक्सेना, एएडी, 12 जून 2008

(आईसी-41990एम) ए आर अशोक आनंद, इंजीनियर्स, 18 जून 2009

(आईसी-41247डब्ल्यू) डी एस शरणाम्पा, इंजीनियर्स, 18 जून 2009

(आईसी-41265वाई) खान महम्मूद, एसी, 18 जून 2009

(आईसी-41337एक्स) प्रतीक जोशी, एसी, 18 जून 2009

(आईसी-41425एन) डी के शर्मा, एएससी, 18 जून 2009

(आईसी-41719एफ) सकार्य फिलिप, एसी, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-41748डब्ल्यू) नीरज धावन, इन्फैन्ट्री, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-41789ए) विजय सिन्हा, एएससी, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-41829डब्ल्यू) एस सी नथानी, आईसी, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-41840पी) अजय मेहता, आईसी, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-41842ए) जे पी जोर्ज, आईसी, 17 दिसम्बर 2009

(आईसी-41903एम) एन एन सिंह, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-41950के) ए मुखर्जी, आर्टी, 09 जून 2010

(आईसी-41976वाई) गौतम दार, मैक इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42050एम) एम रविन्द्र, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42064एम) टी आर शर्मा, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42086एल) वी डी शर्मा, इन्ट, 09 जून 2010

(आईसी-42106एन) अपूर्वा सामन्ता, एओसी, 09 जून 2010

(आईसी-42109एफ) विजय सिंह, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42114एम) एस पी शुक्ला, इंजीनियर्स, 09 जून 2010

(आईसी-42118एच) विवेक सूद, इंजीनियर्स, 09 जून 2010

(आईसी-42147एक्स) डी पी एस राघव, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42210एफ) सी वी शर्मा, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42218एन) आर के चौधरी, मैक इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010

(आईसी-42239के) सुखजीत सिंह, इंजीनियर्स, 09 जून 2010

(आईसी-42246ए) आर एस गहलोड, आईसी, 09 जून 2010

(आईसी-42256एक्स) जगदीश चन्द्रा, आईसी, 09 जून 2010

(आईसी-43635एम) वी एस वी बाबू, इंजीनियर्स, 18 दिसम्बर 2009

(आईसी-43994ए) जशवीर सिंह, इंजीनियर्स, 14 जून 2010
 (आईसी-44001एच) अभिजीत घोष, इंजीनियर्स, 14 जून 2010
 (आईसी-44009पी) जी एस गुप्ता, इंजीनियर्स, 14 जून 2010
 (आईसी-44016एल) अजीत कुमार मलिक, इंजीनियर्स, 14 जून 2010
 (आईसी-45137वाई) ए के मलिक, एसी, 10 नवम्बर 2009
 (आईसी-45150एच) ए के सिंह, गार्ड्स, 10 नवम्बर 2009
 (आईसी-45157एम) पी पी एस सिधू, एसी, 10 नवम्बर 2009
 (आईसी-45176एक्स) वी वी भट्ट, मैक इन्फैन्ट्री, 25 अप्रैल 2010
 (आईसी-45184डब्ल्यू) एस चन्द्रा, गार्ड्स, 25 अप्रैल 2010
 (आईसी-45192पी) एस एस लालजी, इंजीनियर्स, 25 अप्रैल 2010
 (आईसी-45233एन) विजय मोहन जी, इंजीनियर्स, 25 अप्रैल 2010
 (आईसी-45249वाई) ए एन सोनी, एसी, 25 अप्रैल 2010
 (आईसी-45268के) दीपक वर्मा, एएडी, 25 अप्रैल 2010
 (वी-381एम) यदविन्द्रा जोशी, आरवीसी, 02 जनवरी 2009

टी के दास
 उप निदेशक
 एमएस-8ए

सेना शाखा

सं. 78, दिनांक 27 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल

आईसी सं., नाम, आर्म

(आईसी-56169) संदीप सिंह सिधू, ईएमई

(आईसी-56170) प्रीतपाल सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-56171) शिव मंगल सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-56172) संदीप मेहरा, सिग्नल्स

--09 मई 2010

आईसी सं., नाम, आर्म तथा ले कर्नल दिनांक से

(आईसी-54389) वी नन्दा कुमार, आर्टी, 08 जून 2009

(आईसी-55595) मनीष वर्मा, इन्फैन्ट्री, 09 नवम्बर 2009
 (आईसी-55674) अरूण अवस्थी, इन्फैन्ट्री, 24 अप्रैल 2010
 (आईसी-56711) विमुक्ति मैदोला, इंजीनियर्स, 07 दिसम्बर 2009
 (आईसी-57076) कमलदीप सिंह, इन्फैन्ट्री, 07 जून 2010
 (आईसी-57096) मनीष कुमार सिंह, एसी, 07 जून 2010
 (आईसी-57152) भानु प्रताप सिंह पटवाल, इंजीनियर्स, 07 जून 2010
 (आईसी-57168) अनिल मैनन, इंजीनियर्स, 07 जून 2010
 (आईसी-57205) अमित रावत, इंजीनियर्स, 07 जून 2010
 (आईसी-58947) धर्म वीर सिंह, इंजीनियर्स, 12 जून 2010
 (आईसी-58971) प्रेम कुमार यादव, ईएमई, 12 जून 2010
 (आईसी-59020) पोलश गोगई, सिग्नल्स, 12 जून 2010
 (आईसी-59030) प्रवीण एस, इंजीनियर्स, 12 जून 2010
 (आईसी-59033) जोहन कोदनकंड्य, इंजीनियर्स, 12 जून 2010

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल

नाम, डब्ल्यू एस सं., आर्म तथा लेफ्टि कर्नल दिनांक से

लकी बिष्ट (डब्ल्यूएस-00361), ईएमई, 09 सितम्बर 2010

स्वाती कुलकर्णी (डब्ल्यूएस-00371), सिग्नल्स, 09 सितम्बर 2010

अल्प-कालीन सेवा कमीशन

लेफ्टि से कप्तान

एसएससं., नाम. आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स/संशोधित वरीयता तिथि तथा कप्तान दिनांक से

(एसएस-42878) हरिश कुमार राणा, मैक, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

(एसएस-42899) अजीत सिंह, ईएमई, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

(एसएस-42928) संदीप सिंह, मैक, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

(एसएस-42947) रवि राय भयाना, इंजीनियर्स, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

(एसएस-42961) चरणजीत सिंह अहलूवालिया, एओसी, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

(एसएस-42963) राहुल कटोच, इंजीनियर्स, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

(एसएस-42970) शर्मा कपिल कुमार, इंजीनियर्स, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

(एसएस-42972) नरेन्द्र सिंह मेहरा, ईएमई, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

(एसएस-42998) रोहन चटर्जी, इंजीनियर्स, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

(एसएस-43017) अभिनव बहुगुणा, ईएमई, 22 मार्च 2008, एसएससी-85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

पी के शास्त्री
मेजर

एमएस-8बी

थल सेना विभाग

सं. 79, दिनांक 27 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना इन्फैन्ट्री-जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार शेर मोहम्मद (सं. 9089866पी अब जेसी-593861एच), 17 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 15 दिसम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 9089021डब्ल्यू अब जेसी-593862एल), 17 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जनवरी 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मंजूर अहमद गनी (सं. 9088155एच अब जेसी-593863एन), 10 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शबीर अहमद (सं. 9088815पी अब जेसी-593864डब्ल्यू), 08 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बाबू राम (सं. 9088833एक्स अब जेसी-593865वाई), 10 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार नासिब सिंह चिब (सं. 9088496एन अब जेसी-593866एफ), 21 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अप्रैल 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार ऋषि कुमार (सं. 9087314एच अब जेसी-593867के), 09 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार नसीब सिंह (सं. 9089211एच अब जेसी-593868एम), 10 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार धन बहादुर सिंह (सं. 9089523वाई अब जेसी-593869पी), 08 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कफिल अहमद (सं. 9089434ए अब जेसी-593870के), 25 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 15 दिसम्बर 2009 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मंजूर अहमद खांडी (सं. 9089350एम अब जेसी-593871एम), 03 जून 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार पूरन चंद (सं. 9089646एल अब जेसी-593872पी), 11 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सरदार सिंह (सं. 9089727एल अब जेसी-593873एक्स), 11 मई 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कालू सिंह (सं. 2883626एफ अब जेसी-470610एक्स), 20 अप्रैल 2010/29 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) अर्जुन कुमार मिश्रा (सं. 2886109पी अब जेसी-470611ए), 30 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) संत कुमार मिश्रा (सं. 2886113एक्स अब जेसी-470612एच), 01 जनवरी 2010*

हवलदार मोहमद इकबाल (सं. 2883264एल अब जेसी-470613एल), 19 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार नासिम अहमद (सं. 2883268एफ अब जेसी-470614एन), 19 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हरफूल सिंह (सं. 2885309वाई अब जेसी-470615डब्ल्यू),
26 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जय सिंह (सं. 2884809के अब जेसी-470616वाई),
01 जनवरी 2010

हवलदार नबाब सिंह (सं. 2885378पी अब जेसी-470617एफ),
08 मार्च 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हुसैन खान (सं. 2885414पी अब जेसी-470618के),
08 मार्च 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जान मोहमद (सं. 2885810एल अब जेसी-470619एम),
08 मार्च 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार भगवान सिंह मेरतीया (सं. 2884927एक्स अब
जेसी-470620एफ), 01 जनवरी 2010

हवलदार ब्रिजेश कुमार सिंह (सं. 2884936वाई अब जेसी-470621के),
01 जनवरी 2010

हवलदार विजेन्द्र सिंह (सं. 2884970वाई अब जेसी-470622एम),
01 जनवरी 2010

हवलदार अजमत खान कुरेशी (सं. 2883164ए अब जेसी-
470623पी), 10 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार इन्नाश (सं. 2883335एफ अब जेसी-470624एक्स),
22 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार ताजा राम चौधरी (सं. 3995517एम अब जेसी-470625ए),
19 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार इशताक (सं. 2883312ए अब जेसी-470626एच),
10 मार्च 2010/10 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार विजेन्द्र सिंह (सं. 2886066एल अब जेसी-470627एल),
08 मार्च 2010/27 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 27 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चरनजीत सिंह (सं. 3389287डब्ल्यू अब जेसी-500217एम),
26 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 3390168एम अब जेसी-500218पी),
04 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 3388394एल अब जेसी-500219एक्स),
07 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हरजीत सिंह (सं. 3388472एक्स अब जेसी-500220एम),
15 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 31 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सुखवंत सिंह (सं. 3888402वाई अब जेसी-500221पी),
06 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हरजीत सिंह (सं. 3388605एच अब जेसी-500222एक्स),
22 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार गुरिन्दर सिंह (सं. 3390878के अब जेसी-500223ए),
21 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मोहिन्दर पाल सिंह (सं. 3390263वाई अब जेसी-
500224एच), 14 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार अमरित सिंह (सं. 4469939एन अब जेसी-509926एच),
07 जून 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार गुरमैल सिंह (सं. 4471234ए अब जेसी-509927एल),
26 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार भोला सिंह (सं. 4468098के अब जेसी-509928एन),
13 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 11 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार मंजीत सिंह सिधु (सं. 4469991डब्ल्यू अब जेसी-
509929डब्ल्यू), 21 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 02 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 4469998ए अब जेसी-509930एल),
21 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 02 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 4471407एम अब जेसी-509931एन),
26 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 09 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अजमेर सिंह (सं. 4467711वाई अब जेसी-509932डब्ल्यू),
12 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 4467457ए अब जेसी-509933वाई),
21 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 11 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार बचित्तर सिंह (सं. 4467610एल अब जेसी-509934एफ),
27 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 23 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 4469136एफ अब जेसी-509936एम),
10 मई 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार त्रलोचन सिंह (सं. 4467858पी अब जेसी-509937पी),
12 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मनिन्दर सिंह (सं. 4469007एफ अब जेसी-509938एक्स),
18 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (सं. 4466744एक्स अब जेसी-509939ए),
13 मई 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार पूरण सिंह (सं. 4467236एन अब जेसी-509940पी),
25 मई 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार पृथ्वी सिंह (सं. 4468077एन अब जेसी-509941एक्स),
17 मई 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार धीरा सिंह (सं. 4468250एम अब जेसी-509942ए),
24 मई 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रेशम सिंह (सं. 4468298ए अब जेसी-509943एच),
05 मई 2010*

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 11 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) एसडी के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) नरेन्द्र सिंह (सं. 4468906डब्ल्यू अब
जेसी-509935के), 10 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) जयबीर सिंह (सं. 4468907वाई अब जेसी-
509944एल), 01 मई 2010*

*(नायब सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) दिनेश कुमार सेन (सं. 4468908एफ अब जेसी-509945एन), 01 जून 2010*

*(नायब सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) पत्तन के आर टी खान (सं. 4468925एफ अब जेसी-509946डब्ल्यू), 01 जून 2010*

*(नायब सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

5 जीआर (एफएफ)

नायब सूबेदार/लिपिक (एसडी) और नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार सुरज गुरुंग (सं. 5451672एक्स अब जेसी-617979एल), 01 अप्रैल 2010

हवलदार/लिपिक एस के सुल्तान (सं. 5450266एल अब जेसी-617980ए), 01 अप्रैल 2010

हवलदार/लिपिक कलास्कर अशोक कुमार पाण्डुरंग (सं. 15359791एल अब जेसी-617981एच), 01 मई 2010

हवलदार टेक बहादुर थापा (सं. 5450747एक्स अब जेसी-617982एल), 01 मई 2010

हवलदार खडक बहादुर पुन (सं. 5450750एक्स अब जेसी-617983एन), 01 मई 2010

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार मेख बहादुर गुरुंग (सं. 5451654पी अब जेसी-617974एम), 17 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

हवलदार गगन सिंह गुरुंग (सं. 5450515वाई अब जेसी-617975पी), 01 अप्रैल 2010

हवलदार मिन बहादुर थापा (सं. 5450625एन अब जेसी-617976एक्स), 04 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार मधु कुमार श्रेष्ठा (सं. 5450631एफ अब जेसी-617977ए), 04 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार लुभ बहादुर ढेगा (सं. 5450645एफ अब जेसी-617978एच), 17 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

जाट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रोहताश सिंह कुण्डू (सं. 3182040एच अब जेसी-490539डब्ल्यू), 19 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार जय हिन्द (सं. 3182103ए अब जेसी-490540एल), 01 मई 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) खेता राम (सं. 15359246एफ अब जेसी-490541एन), 08 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) रघुबीर प्रसाद गूजर (सं. 15359266पी अब जेसी-490542डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

हवलदार (लिपिक) पटेल अमितभाई बाबूभाई (सं. 15359280एफ अब जेसी-490543वाई), 23 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) कमलेश ठाकुर (सं. 15359504डब्ल्यू अब जेसी-490544एफ), 01 मई 2010

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विनोद कुमार (सं. 3991397एफ अब जेसी-521159एफ), 23 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार रवि कुमार (सं. 3989018एफ अब जेसी-521160डब्ल्यू), 23 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 3987963वाई अब जेसी-521161वाई), 29 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार सुखदेव राज (सं. 3988013डब्ल्यू अब जेसी-521162एफ), 03 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार रविन्दर कुमार (सं. 3987352के अब जेसी-521163के),
10 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार हुक्म चन्द (सं. 3987683एल अब जेसी-521167ए),
21 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार जनक सिंह (सं. 3986727एल अब जेसी-521168एच),
01 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार सुरिंद्र कुमार शर्मा (सं. 3986996एक्स अब जेसी-
521169एल), 24 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार सोहन लाल (सं. 3988560एल अब जेसी-521170ए),
28 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 3989391एफ अब जेसी-521171एच),
28 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार भागदेव राठौर (सं. 3989390वाई अब जेसी-521172एल),
28 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 3989570एफ अब जेसी-521173एन),
28 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार ज्ञान चंद (सं. 3988687एन अब जेसी-521174डब्ल्यू),
08 जून 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 3987846एन अब जेसी-521175वाई),
12 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार जगतार सिंह (सं. 3987849एफ अब जेसी-521176एफ),
01 मई 2010

हवलदार तिलक राज चौधरी (सं. 3987889एच अब जेसी-
521177के), 01 मई 2010

हवलदार मोहन लाल मांडलिया (सं. 3987902एफ अब जेसी-
521178एम), 01 मई 2010

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 3987670एन अब जेसी-521179पी),
01 जून 2010

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 4359242एक्स अब जेसी-521180के),
01 जून 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) पडवाल चन्द्रकांत भाऊसाहेब (सं. 15361678पी
अब जेसी- 521164एम), 03 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) सुभाष चन्द्र (सं. 3989302एक्स अब
जेसी-521181एम), 01 जून 2010

हवलदार (लिपिक) जया चौधरी (सं. 15361908एक्स अब
जेसी-521165पी), 01 जून 2010

हवलदार अशविंदर कुमार (सं. 3988352डब्ल्यू अब जेसी-
521140एच), 28 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राजिंदर कुमार (सं. 3988503के अब जेसी-521141एल),
28 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार मदन लाल (सं. 3987998पी अब जेसी-521142एन),
03 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 3996698पी अब जेसी-521143डब्ल्यू),
28 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाएगी)

हवलदार हरनाम सिंह (सं. 3989351ए अब जेसी-521144वाई),
28 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाएगी)

हवलदार मनजीत पॉल (सं. 3989444पी अब जेसी-521145एफ),
04 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 मार्च 2010 से दी जाएगी)

हवलदार विनोद कुमार गुलेरिया (सं. 3989493के अब जेसी-
521146के), 28 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 मार्च 2010 से दी जाएगी)

हवलदार चैन सिंह (सं. 3987709पी अब जेसी-521147एम),
30 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार युद्धवीर सिंह (सं. 3987929वाई अब जेसी-521148पी),
23 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 3987448एम अब जेसी-521149एक्स),
01 अप्रैल 2010

हवलदार ओमप्रकाश (सं. 3989581एन अब जेसी-521150एम),
28 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार सरताज सिंह (सं. 3989594एल अब जेसी-521151पी),
28 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार सनसार सिंह (सं. 3989599के अब जेसी-521152एक्स),
28 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार पवन कुमार (सं. 3990026एम अब जेसी-521153ए),
14 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3990203एफ अब जेसी-521154एच),
03 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3990272एक्स अब जेसी-521155एल),
09 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार पवन सिंह (सं. 3988007एच अब जेसी-521156एन),
10 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार भूपिन्द्र सिंह (सं. 3987938ए अब जेसी-521157डब्ल्यू),
03 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 3990670वाई अब जेसी-521158वाई),
01 मई 2010

कुमांऊ रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम दत्त यादव (सं. 4181526एक्स अब जेसी-540777एफ),
27 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी गई है)

हवलदार सीता राम यादव (सं. 4183212पी अब जेसी-540778के),
01 अप्रैल 2010

हवलदार जितेन्द्र सिंह (सं. 4182471एल अब जेसी-550775डब्ल्यू),
24 मार्च 2010/19 फरवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार सोबन सिंह (सं. 4181911एफ अब जेसी-540776वाई),
01 अप्रैल 2010

हवलदार नरोत्तम (सं. 4181413पी अब जेसी-540779एम), 23 अप्रैल
2010/26 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 मार्च 2010 से दी गई है)

हवलदार हयाद सिंह (सं. 4181765एम अब जेसी-540780एफ),
01 मई 2010

हवलदार (बैंड) हरी राम (सं. 4181558ए अब जेसी-540781के),
03 मई 2010/01 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी गई है)

हवलदार (बैंड) बसन्त राम (सं. 4183320ए अब जेसी-540782एम),
07 मई 2010

नागा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार एल निखिनी (सं. 14703379एच अब जेसी-590263ए),
03 मई 2010/11 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार सुन्दर लाल (सं. 14702118एच अब जेसी-590264एच),
13 अप्रैल 2010/01 फरवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार कोरंग नगमबा कोम (सं. 14703511एक्स अब जेसी-
590265एल), 13 अप्रैल 2010/23 फरवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार किशन बहादुर श्रेष्ठा (सं. 14702123एन अब जेसी-
540266एन), 13 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी गई है)

कुमाऊ रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार भूप सिंह (सं. 4181406वाई अब जेसी-540783पी),
19 अप्रैल 2010/26 मई 2009 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 मई 2009 से दी गई है)

हवलदार महेश चन्द्रा (सं. 4182018एन अब जेसी-540784एक्स),
13 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार बिशन सिंह (सं. 4181405डब्ल्यू अब जेसी-540785ए),
08 मार्च 2010/01 जनवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार महेश चन्द्रा (सं. 4181457एम अब जेसी-540786एच),
08 मार्च 2010/01 फरवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 4182150एन अब जेसी-540787एल),
10 मई 2010/01 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी गई है)

हवलदार बंशीधर कापड़ी (सं. 4181458पी अब जेसी-540788एन),
08 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी गई है)

हवलदार इन्द्र राज सिंह (सं. 4180247ए अब जेसी-540789डब्ल्यू),
01 मई 2010/02 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2010 से दी गई है)

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 4181798एक्स अब जेसी-540790एल),
01 मई 2010

हवलदार नन्द किशोर (सं. 4182034एल अब जेसी-540791एन),
01 मई 2010

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 4182070डब्ल्यू अब जेसी-540792डब्ल्यू),
01 मई 2010

हवलदार ललित मोहन बोरा (सं. 4184120पी अब जेसी-540793वाई),
01 मई 2010

हवलदार कीर्ति बल्लभ (सं. 4180590एच अब जेसी-540794एफ),
01 मई 2010

हवलदार दौलत सिंह (सं. 4180658वाई अब जेसी-540795के),
01 मई 2010

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 4180317एच अब जेसी-540796एम),
04 मई 2010/01 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी गई है)

हवलदार नरेश चन्द (सं. 4180380एच अब जेसी-540797पी),
04 मई 2010/01 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी गई है)

हवलदार नवाब सिंह कुशावाह (सं. 4180963डब्ल्यू अब जेसी-
540798एक्स), 04 मई 2010/01 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी गई है)

हवलदार जय पाल सिंह (सं. 4183629पी अब जेसी-540799ए),
05 मई 2010/01 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी गई है)

हवलदार कृपाल सिंह (सं. 4181294के अब जेसी-540800के),
01 अप्रैल 2010

हवलदार गिरीश चन्द्र तिवारी (सं. 4181609एच अब
जेसी-540801एम), 16 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी गई है)

हवलदार ओम प्रकाश यादव (सं. 4182155एम अब जेसी-540802पी),
21 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी गई है)

हवलदार पुरन सिंह रावल (सं. 4182680एच अब जेसी-540803एक्स),
24 मई 2010/01 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी गई है)

हवलदार सरवेश सिंह (सं. 4181570एफ अब जेसी-540804ए),
28 मई 2010/10 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 मई 2010 से दी गई है)

हवलदार राज कुमार (सं. 4182766एफ अब जेसी-540805एच),
19 मई 2010/01 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी गई है)

हवलदार गोपाल स्वरूप जोशी (सं. 4181624एक्स अब जेसी-540806एल),
04 जून 2010/01 जून 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी गई है)

हवलदार त्रिलोक चन्द्र (सं. 4182404ए अब जेसी-540807एन),
01 जून 2010

नागा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दिनेश प्रसाद (सं. 14702105एल अब जेसी-590267डब्ल्यू),
21 मई 2010/01 फरवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार ठोम्बरे म्हातारदेव भीमाजी (सं. 2783821के अब
जेसी-460182डब्ल्यू), 23 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 दिसम्बर 2009 से दी गई है)

हवलदार बर्गे सतीश विष्णू (सं. 2790576पी अब जेसी-460183वाई),
23 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार दाले अन्ना कृष्णराव (सं. 2791102ए अब जेसी-460184एफ),
31 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 जनवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार इंजल राजेंद्र विष्णू (सं. 2789398एल अब जेसी-460185के),
23 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार महेश देसाई (सं. 2788750एक्स अब जेसी-460186एम),
31 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 1 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार जगदाले कुमार ज्ञानदेव (सं. 2789118एम अब जेसी-460187पी),
20 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 फरवरी 2010 से दी गई है)

हवलदार घोरपड़े नवनाथ शिवराम (सं. 10119504पी अब
जेसी-460188एक्स), 23 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 मार्च 2010 से दी गई है)

हवलदार प्रकाश नाईक (सं. 2785302ए अब जेसी-460189ए),
23 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 मार्च 2010 से दी गई है)

हवलदार पी विजय कुमार (सं. 2788637एच अब जेसी-460190पी),
25 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी गई है)

हवलदार पाटील भरत विष्णू (सं. 2788865एल अब
जेसी-460191एक्स), 04 जून 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी गई है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार ब्रुसभा पांडे (सं. 2783198वाई अब जेसी-460191ए),
14 जून 2010+

हवलदार रंजीत बी भोइटे (सं. 2787502पी अब जेसी-460172एम),
22 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 जुलाई 2009 से दी गई है)

हवलदार राकूल संतोष लक्ष्मण (सं. 2788864एच अब जेसी-460173पी),
16 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार राबेन्द्र प्रसाद पटेल (सं. 2787792एक्स अब जेसी-460174एक्स),
08 मई 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार शाबू ए (सं. 2787870के अब जेसी-460175ए), 20 मई
2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार गायकवाड़ वेंकट लिम्बरराज (सं. 2785663वाई अब
जेसी-460176एच), 30 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार शामलाल शर्मा (सं. 2784806एफ अब जेसी-460177एल),
22 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार आभागे संजय हरीचंद्र (सं. 2787412एन अब जेसी-460178एन),
22 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार विकास हिंडलगेकर (सं. 2788236एन अब जेसी-460179डब्ल्यू),
09 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार सैदली नुष्पीदियन (सं. 2788308एम अब जेसी-460180एल),
09 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 09 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार लांडे बजरंग बालकृष्ण (सं. 2788539एच अब
जेसी-460181एन), 22 अप्रैल 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 मार्च 2010 से दी जाती है)

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (जी डी/लिपिक) के रैंक में

हवलदार कर्मा टोपो (सं. 4267764एन अब जेसी-560327एल),
01 अप्रैल 2010/01 सितम्बर 2009×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार मथिअस लकरा (सं. 4270406एन अब जेसी-560328एन),
02 अप्रैल 2010/01 जनवरी 2010×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार यूकेय शोभिलाल हीरामन (सं. 4266379एक्स अब
जेसी-560329डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2010/03 जनवरी 2010×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता 03 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार धर्म देव सिंह (सं. 4267838एक्स अब जेसी-560330एल),
26 मार्च 2010/01 फरवरी 2010×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार बोनीफस खल्खो (सं. 4270451ए अब जेसी-560331एन),
02 अप्रैल 2010/07 फरवरी 2010×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता 07 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिनोद कुमार सिंह (सं. 4265948एन अब जेसी-560332डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

हवलदार अनिल बरला (सं. 4270815एफ अब जेसी-560333वाई),
03 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिनय कुमार सिंह (सं. 4267538डब्ल्यू अब जेसी-560343एफ),
01 अप्रैल 2010

हवलदार अनिल कुमार सिंह (सं. 4267709एक्स अब जेसी-560335के),
01 अप्रैल 2010

हवलदार हरी राम तरम (सं. 4270515ए अब जेसी-560336एम),
01 अप्रैल 2010

हवलदार बिरेंद्र प्रधान (सं. 4266821एक्स अब जेसी-560337पी),
01 अप्रैल 2010

हवलदार प्रसन्ना कुमार प्रधान (सं. 4266822ए अब जेसी-560338एक्स),
01 अप्रैल 2010

हवलदार/लिपिक फौज मोहमद (सं. 4269318एल अब
जेसी-560339ए), 01 अप्रैल 2010

हवलदार सनातन मुण्डा (सं. 4269554एम अब जेसी-560340पी),
12 अप्रैल 2010/23 सितम्बर 2009×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार कालीपाद सरदार (सं. 4267576एम अब जेसी-560341एक्स),
11 अप्रैल 2010/18 अक्टूबर 2009×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता 18 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

- हवलदार असनंदन राम (सं. 4267040डब्ल्यू अब जेसी-560342ए),
13 अप्रैल 2010/18 दिसम्बर 2009×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 18 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)
- हवलदार प्रेम प्रकाश तिरू (सं. 4268616पी अब जेसी-560343एच),
11 अप्रैल 2010/23 दिसम्बर 2009×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 23 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)
- हवलदार धीरेन्द्र तिवारी (सं. 4266495ए अब जेसी-560344एल),
11 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- हवलदार मोहन सिंह (सं. 4266914एम अब जेसी-560345एन),
12 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- हवलदार गोपाल कुमार सिंह (सं. 4268362एच अब जेसी-560346डब्ल्यू),
10 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- हवलदार ईस्वर चन्द्र मलिक (सं. 4270007के अब जेसी-560347वाई),
12 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- हवलदार बुधमन उर्वाव (सं. 4267622वाई अब जेसी-560348एफ),
27 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- हवलदार अजय कुमार साहु (सं. 4267661पी अब जेसी-560349के),
27 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- हवलदार बिमल कुमार सिंह (सं. 4267847वाई अब जेसी-560350वाई),
01 अप्रैल 2010
- हवलदार लुकस डांगा (सं. 4268471पी अब जेसी-560351एफ),
01 अप्रैल 2010
- हवलदार हरसन डांग (सं. 4270233एफ अब जेसी-560352के),
13 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- हवलदार ललन सिंह (सं. 4268265एल अब जेसी-560353एम),
01 मई 2010
- हवलदार उमेश सिंह (सं. 4265974पी अब जेसी-560354पी),
21 अप्रैल 2010/01 जनवरी 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- हवलदार बिरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 4267531एम अब जेसी-560355एक्स),
13 अप्रैल 2010/01 जनवरी 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- हवलदार भुवनेश्वर सिंह (सं. 4266500ए अब जेसी-560356ए),
12 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)
- हवलदार राजेश बक्ला (सं. 4269509ए अब जेसी-560360एच), 03
जून 2010/01 जनवरी 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- हवलदार याकुब खल्खो (सं. 4270582एल अब जेसी-560361एल),
10 मई 2010/01 जनवरी 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- हवलदार महले सामभाजी ज़िपारु (सं. 4266124एक्स अब
जेसी-560362एन), 07 जून 2010/01 अप्रैल 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- हवलदार जय शंकर मिश्रा (सं. 4266786ए अब जेसी-560363डब्ल्यू),
13 जून 2010/25 अप्रैल 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- हवलदार सतेंद्र उराव (सं. 4268118एच अब जेसी-560364वाई),
26 जून 2010/05 मई 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 05 मई 2010 से दी जाती है)
- हवलदार तपन कुमार चकरा (सं. 4268504पी अब
जेसी-560365एफ), 17 जून 2010/01 जून 2010×
- ×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
- हवलदार बिजय तिकी (सं. 4270818पी अब जेसी-560366के),
01 जून 2010

11 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राम कुमार (सं. 9418338पी अब जेसी-634898एफ),
01 दिसम्बर 2009

हवलदार मनी कुमार तामंग (सं. 9418631एम अब जेसी-634900एन),
01 जनवरी 2010

हवलदार जुद्धा कुमार राई (सं. 9418546के अब जेसी-634907एक्स),
01 जनवरी 2010

हवलदार भूपल राई (सं. 9418573एन अब जेसी-634908ए),
13 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार मिलन प्रधान (सं. 9418806के अब जेसी-634909एच),
01 जनवरी 2010

हवलदार मेम कुमार राई (सं. 9418898एफ अब जेसी-634910एक्स),
01 जनवरी 2010

हवलदार हर्का बहादुर लिम्बु (सं. 9418903एफ अब जेसी-634911ए),
19 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार भरत राई (सं. 9419147एम अब जेसी-634912एच),
01 जनवरी 2010

हवलदार फौदा सिंह राई (सं. 9419729एम अब जेसी-634913एल),
23 जनवरी 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार मोहन प्रसाद लिम्बु (सं. 9420057एक्स अब
जेसी-634914एन), 16 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार दिल्ली राम लिम्बु (सं. 9419173एन अब जेसी-634915डब्ल्यू),
09 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
26 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार हर्का राज राई (सं. 9419009एल अब जेसी-634916वाई),
26 फरवरी 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुर्या बहादुर राई (सं. 9418784डब्ल्यू अब जेसी-634917एफ),
02 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार रोशन गोले (सं. 9418674एफ अब जेसी-634918के),
01 मार्च 2010

हवलदार राम प्रसाद गौतम (सं. 9418766एन अब जेसी-634919एम),
05 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार धन प्रसाद राई (सं. 9418886एम अब जेसी-634920एफ),
01 अप्रैल 2010

हवलदार प्रीती मन राई (सं. 9419189वाई अब जेसी-634921के),
01 अप्रैल 2010

हवलदार पिताम्बर लिम्बु (सं. 9418786एफ अब जेसी-634922एम),
01 अप्रैल 2010

हवलदार ग्यान बहादुर राई (सं. 9418939ए अब जेसी-634923पी),
01 अप्रैल 2010

हवलदार उदय कुमार लिम्बु (सं. 9418922एम अब जेसी-634924एक्स),
01 अप्रैल 2010

हवलदार हैदीप राई (सं. 9418974एच अब जेसी-634925ए),
22 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जीडी के रैंक में

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 4359241पी अब जेसी-581099एफ),
12 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 13752466के अब जेसी-581100एल),
01 मई 2010

हवलदार वीर करण (सं. 13752506ए अब जेसी-581101एन),
01 मई 2010

हवलदार देस राज (सं. 13751320के अब जेसी-581102डब्ल्यू),
07 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार हेम राज (सं. 13751343एल अब जेसी-581103वाई),
15 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार देविंद्र सिंह (सं. 13751677ए अब जेसी-581104एफ),
07 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार उत्तम चंद (सं. 13752414एन अब जेसी-581105के),
12 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मेध नाथ (सं. 13752486एक्स अब जेसी-581106एम),
07 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सरन दास (सं. 13752718एल अब जेसी-581107पी),
01 मई 2010

हवलदार गज्जन सिंह (सं. 13750773एच अब जेसी-581108एक्स),
27 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार प्रेम बहादुर छेत्री (सं. 13751446के अब जेसी-581109ए),
10 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अब्दुल रशीद कलगन (सं. 13751609एम अब जेसी-581110पी), 01 जून 2010

हवलदार प्रकाश चंद चंदेल (सं. 13752579एम अब जेसी-581111एक्स),
01 जून 2010

हवलदार मदन लाल (सं. 13752583पी अब जेसी-581112ए),
01 जून 2010

हवलदार रूप लाल (सं. 13751183डब्ल्यू अब जेसी-581113एच),
02 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 13752362एच अब जेसी-581114एल),
03 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार शांती सरूप (सं. 13752363एल अब जेसी-581115एन),
03 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार संतौख सिंह (सं. 13751431एफ अब जेसी-581116डब्ल्यू),
01 जून 2010

हवलदार चमन लाल (सं. 13752365डब्ल्यू अब जेसी-581117वाई),
03 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद रफीक (सं. 13752963एन अब जेसी-581118एफ),
01 जून 2010

गढ़वाल राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार तीरथ सिंह गुसाईं (सं. 4070675डब्ल्यू अब जेसी-530851के),
22 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 4070927एक्स अब जेसी-530852एम),
22 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार भूपेंद्र सिंह बोहरा (सं. 4070976ए अब जेसी-530853पी),
22 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार मनोहरी लाल सती (सं. 4071837एच अब जेसी-530854एक्स),
12 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रदीप सिंह रावत (सं. 4071005एफ अब जेसी-530855ए),
22 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार बीरेंद्र सिंह नेगी (सं. 4071629एन अब जेसी-530856एच),
22 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार दिनेश सिंह (सं. 4070491एक्स अब जेसी-530857एल),
04 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार रवीन्द्र सिंह (सं. 4070138एल अब जेसी-530858एन),
01 अप्रैल 2010

हवलदार कमल सिंह (सं. 4071208एल अब जेसी-530859डब्ल्यू),
07 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार हीरा सिंह (सं. 4071631एल अब जेसी-530860एल),
07 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार रूप राम (सं. 2884448डब्ल्यू अब जेसी-530861एन),
22 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 4069648ए अब जेसी-530864एफ),
01 मई 2010

हवलदार अमर देव (सं. 4070101के अब जेसी-530865के),
29 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार सतेंद्र सिंह बिष्ट (सं. 4067489पी अब जेसी-530866एम),
07 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 4069979एफ अब जेसी-530867पी),
05 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार चिन्ता सिंह (सं. 4072165एन अब जेसी-530868एक्स),
07 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार महाबीर सिंह (सं. 4069530वाई अब जेसी-530869ए),
12 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार सतीश सिंह (सं. 2884791वाई अब जेसी-530870पी),
10 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 4071644एच अब जेसी-530871एक्स),
22 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार दरमियान सिंह (सं. 4070714के अब जेसी-530872ए),
03 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 4070801एक्स अब जेसी-530873एच),
03 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4069598ए अब जेसी-530874एल),
01 मई 2010

हवलदार कुन्दन सिंह जंगवान (सं. 4069600एम अब जेसी-530875एन),
01 मई 2010

हवलदार राजेंद्र सिंह, से मे (सं. 4069603ए अब जेसी-530876डब्ल्यू),
01 मई 2010

हवलदार अमर सिंह (सं. 4070587ए अब जेसी-530877वाई),
01 जून 2010

हवलदार दिलवर सिंह (सं. 4070003के अब जेसी-530878एफ),
04 जून 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार उमराव सिंह (सं. 4070241डब्ल्यू अब जेसी-530879के),
01 जून 2010

हवलदार गोविंद सिंह नेगी (सं. 4070813एम अब जेसी-530880वाई),
01 जून 2010

हवलदार ज्ञान सिंह (सं. 4070161वाई अब जेसी-530881एफ),
01 जून 2010

नायब सूबेदार (लिपिक एस डी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक एस डी) मदन लाल राठोड़ (सं. 4069918के अब जेसी-530862डब्ल्यू), 25 मई 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक एस डी) अवतार सिंह रंधावा (सं. 4070746एम अब जेसी-530863वाई), 01 मई 2010

हवलदार जयेंद्र सिंह (सं. 4069619एल अब जेसी-530823एक्स),
01 दिसम्बर 2009

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 4070112डब्ल्यू अब जेसी-530824ए),
29 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार सतेंद्र सिंह (सं. 4069545एफ अब जेसी-530825एच),
07 फरवरी 2010

हवलदार सोबन सिंह (सं. 4069898एफ अब जेसी-530827एन),
15 मार्च 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार चंडी प्रसाद (सं. 2886122वाई अब जेसी-530828डब्ल्यू),
12 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार कलम सिंह (सं. 4068699एफ अब जेसी-530832वाई),
01 अप्रैल 2010

हवलदार मदन सिंह (सं. 4069753डब्ल्यू अब जेसी-530833एफ),
01 अप्रैल 2010

हवलदार विजय सिंह (सं. 4068630एक्स अब जेसी-530834के),
01 अप्रैल 2010

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 4069907एक्स अब जेसी-530835एम),
01 अप्रैल 2010

हवलदार जालम सिंह (सं. 4068756एक्स अब जेसी-530836पी),
15 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार राजबर सिंह रावत (सं. 4069139एफ अब जेसी-530837एक्स),
01 अप्रैल 2010

हवलदार हरी सिंह (सं. 4069974एच अब जेसी-530838ए),
01 अप्रैल 2010

हवलदार मदन सिंह (सं. 2889054एफ अब जेसी-530839एच),
12 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार महेन्द्र सिंह रावत (सं. 4072001एक्स अब जेसी-530840एक्स),
01 अप्रैल 2010

हवलदार शंकर सिंह (सं. 4072033ए अब जेसी-530841ए),
01 अप्रैल 2010

हवलदार राकेश कुमार (सं. 4072128ए अब जेसी-530842एच),
01 अप्रैल 2010

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 3180288एन अब जेसी-530843एल),
12 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रकाश सिंह (सं. 4070246पी अब जेसी-530844एन),
01 अप्रैल 2010

हवलदार प्रवीन कुमार (सं. 4069949के अब जेसी-530845डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

हवलदार महाबीर सिंह (सं. 4070301ए अब जेसी-530846वाई),
01 अप्रैल 2010

हवलदार बीर सिंह (सं. 4070258के अब जेसी-530847एफ),
06 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार राधे श्याम (सं. 4070380ए अब जेसी-530848के),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार दिगम्बर सिंह (सं. 4070397एन अब जेसी-530849एम),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रमोद कुमार काला (सं. 4070695के अब जेसी-530850एफ),
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी) के रैंक में

हवलदार/लिपिक (एस डी) जतेन्द्र शर्मा (सं. 4069777ए अब जेसी-530826एल), 01 मार्च 2010

हवलदार/लिपिक (एस डी) इन्द्र मोहन रावत (सं. 15359129डब्ल्यू अब जेसी-530829वाई), 01 अप्रैल 2010

हवलदार/लिपिक (एस डी) बदन सिंह (सं. 8032287एन अब जेसी-530830एन), 01 अप्रैल 2010

हवलदार/लिपिक (एस डी) प्रेम चन्द मिश्रा (सं. 4069794ए अब जेसी-530831डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4068648एन अब जेसी-530782वाई),
01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं. 4071747एफ अब जेसी-530783एफ),
05 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार जमन सिंह (सं. 4069421एम अब जेसी-530785एम),
13 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 4069286के अब जेसी-530786पी),
01 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह रावत (सं. 4069343ए अब जेसी-530788ए),
20 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार ठाकुर सिंह नेगी (सं. 4069477वाई अब जेसी-530789एच),
20 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार सोहन सिंह रावत (सं. 2888885एन अब जेसी-530790एक्स),
18 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार रमेश सिंह बिष्ट (सं. 4358613एच अब जेसी-530791ए),
12 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रकाश चन्द्र (सं. 4069926एच अब जेसी-530792एच),
04 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार रामेश्वर प्रसाद (सं. 4070250एक्स अब जेसी-530793एल),
04 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार मदन मोहन (सं. 4070374एम अब जेसी-530794एन),
04 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार/लिपिक (एस डी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) हरीश चन्द्र (सं. 4069243पी अब
जेसी-530784के), 01 नवम्बर 2009

हवलदार (लिपिक) जितेन्द्र प्रसाद सकलानी (सं. 4069592वाई अब
जेसी-530787एक्स), 05 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (म्यूजिशियन) के रैंक में

हवलदार (म्यूजिशियन) गोपाल सिंह (सं. 4071838एल अब
जेसी-530795डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

एस अशरफ
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 80, दिनांक 27 जनवरी 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल
पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

उड़न शाखा

एयर कमोडोर (उड़न) के मूल रैंक में

रैंक, नाम, संख्या, शाखा और दिनांक

एयर कमोडोर आर नाम्बियार (16378), उ(पा), 02 फरवरी 2010
(काल्पनिक वरीयता 02 मार्च 2009)

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में एयर कमोडोर ए आई मेहता
(16377) उ(पा) से नीचे और एयर कमोडोर एन यादव (16399)
उ(पा) से ऊपर प्रदर्शित होगा

एयर कमोडोर पी आर सिंह (16243), उ(पा), 16 मार्च 2009

एयर कमोडोर टी पी एस ढिल्लन (16215), उ(पा), 01 जून 2009

एयर कमोडोर एस शर्मा (16227), उ(पा), 01 जून 2009

एयर कमोडोर आर कपूर (16054), उ(पा), 01 जून 2009

एयर कमोडोर एच जे वालिया (16418), उ(एन), 01 जून 2009

एयर कमोडोर आर डी माथुर (16772), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

एयर कमोडोर टी पी सिंह (16781), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

एयर कमोडोर आर ए मशलेकर (16785), उ(पा), 01 सितम्बर
2009

एयर कमोडोर ए एस बुटोला (16789), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

एयर कमोडोर ए तिवारी (16806), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

एयर कमोडोर आई पी विपीन (16829), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

एयर कमोडोर टी डी जोसफ (16964), उ(पा), 01 सितम्बर 2009

एयर कमोडोर एस मोहन (16966), उ(पा), 23 दिसम्बर 2009
(काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2009)

- एयर कमोडोर एम फर्नांडिज (16967), उ(पा), 01 सितम्बर 2009
- एयर कमोडोर पी भट्ट (16970), उ(पा), 01 सितम्बर 2009
- एयर कमोडोर ए देव (16972), उ(पा), 01 सितम्बर 2009
- एयर कमोडोर वी आर चौधरी (16978), उ(पा), 01 सितम्बर 2009
- एयर कमोडोर एम सिंह (16983), उ(पा), 02 अगस्त 2010
(काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2009)
- एयर कमोडोर ए कुमार (16988), उ(पा), 01 सितम्बर 2009
- एयर कमोडोर के पी नायर (17023), उ(एन), 01 जनवरी 2010
- एयर कमोडोर वी डी ईश्वर (16994), उ(पा), 01 जनवरी 2010
- एयर कमोडोर ए गोलानी (16986), उ(पा), 01 जनवरी 2010
- एयर कमोडोर एन हरीश (17135), उ(पा), 01 जनवरी 2010
- एयर कमोडोर आर जे डकवर्थ (17136), उ(पा), 01 जनवरी 2010
- एयर कमोडोर आर होरा (17141), उ(पा), 01 जनवरी 2010
- एयर कमोडोर एन एस जामवाल (17156), उ(पा), 01 फरवरी 2010
- एयर कमोडोर के राघवन (17161), उ(पा), 15 फरवरी 2010
- एयर कमोडोर के सुन्दरम (17163), उ(पा), 16 फरवरी 2010
- एयर कमोडोर ए तिवारी (17160), उ(पा), 01 मार्च 2010
- एयर कमोडोर एस एन देशपांडे (16559), उ(पा), 12 जुलाई 2010
(काल्पनिक वरीयता 26 अप्रैल 2010)
- एयर कमोडोर एस रथ (15726), उ(पा), 26 अप्रैल 2010
- एयर कमोडोर एस एस कोठारी (16788), उ(पा), 03 मई 2010
- एयर कमोडोर आर ईस्सर (16968), उ(पा), 10 मई 2010
- एयर कमोडोर ओ पी तिवारी (16678), उ(एन), 10 मई 2010
- एयर कमोडोर एस सी सफेकर (17013), उ(पा), 10 मई 2010
- एयर कमोडोर वी प्रकाश (17149), उ(पा), 01 जून 2010
- ग्रुप कैप्टन (प्रशासनिक) के मूल रैंक में (प्रशासनिक शाखा)
रैंक, नाम, संख्या, शाखा और दिनांक
- ग्रुप कैप्टन एन कृष्णामूर्ति (सेवानिवृत्त) (17203), प्रशासनिक, 03 नवम्बर 2008
- ग्रुप कैप्टन एम के दीक्षित (17205), प्रशासनिक, 03 नवम्बर 2008
- ग्रुप कैप्टन एन एस वैद्य (17208), प्रशासनिक, 03 नवम्बर 2008
- ग्रुप कैप्टन पी के बापट (17227), प्रशासनिक, 03 नवम्बर 2008
- ग्रुप कैप्टन बी एस सबरवाल (17374), प्रशासनिक, 03 नवम्बर 2008
- ग्रुप कैप्टन एम मोहन्ता (17390), प्रशासनिक, 03 नवम्बर 2008
- ग्रुप कैप्टन एम ए श्रीधर (17027), प्रशासनिक, 16 मार्च 2009
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)
- ग्रुप कैप्टन एस रॉय चौधरी (17196), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2009
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)
- ग्रुप कैप्टन डी विक्टर (17198), प्रशासनिक, 16 फरवरी 2009
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)
- ग्रुप कैप्टन एस जौहरी (17213), प्रशासनिक, 03 नवम्बर 2008
- ग्रुप कैप्टन आर सूद (17378), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2009
(काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008)
- ग्रुप कैप्टन डी वी मोहबे (17484), प्रशासनिक, 03 नवम्बर 2008
- ग्रुप कैप्टन के आर ठाकर (17488), प्रशासनिक, 10 नवम्बर 2008
- ग्रुप कैप्टन एस के पाई (17492), प्रशासनिक, 12 जनवरी 2009
- ग्रुप कैप्टन वी के एस यादव (17734), प्रशासनिक, 06 अप्रैल 2009
- ग्रुप कैप्टन वी पी एस राणा (17736), प्रशासनिक, 06 अप्रैल 2009
- ग्रुप कैप्टन के सी कलीता (16622), प्रशासनिक, 27 अप्रैल 2009
- ग्रुप कैप्टन एन एस टप्रीयाल (17376), प्रशासनिक, 27 अप्रैल 2009
- ग्रुप कैप्टन एस शुक्ला (17379), प्रशासनिक, 18 जनवरी 2010
(काल्पनिक वरीयता 01 जून 2009)
- ग्रुप कैप्टन आर एच मेहन्दीरता (17394), प्रशासनिक, 01 जून 2009
- ग्रुप कैप्टन एम के चितगुपी (सेवानिवृत्त) (17195), प्रशासनिक, 26 नवम्बर 2009
(काल्पनिक वरीयता 07 सितम्बर 2009)
- ग्रुप कैप्टन ए के मिश्रा (17201), प्रशासनिक, 26 अक्टूबर 2009
(काल्पनिक वरीयता 07 सितम्बर 2009)
- ग्रुप कैप्टन जे जोश (17482), प्रशासनिक, 07 सितम्बर 2009
- ग्रुप कैप्टन जे एस बेदी (17491), प्रशासनिक, 07 सितम्बर 2009
- ग्रुप कैप्टन सी जी एस खान (17494), प्रशासनिक, 01 दिसम्बर 2009
- ग्रुप कैप्टन पी एस यादव (17495), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010
- ग्रुप कैप्टन के एस सुधाकर (17510), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010
- ग्रुप कैप्टन एन मुनिरत्नम (17733), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010
- ग्रुप कैप्टन एम डी एन प्रसाद (17741), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010
- ग्रुप कैप्टन के वली (17745), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010
- ग्रुप कैप्टन ए के उपाध्याय (17757), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010
- ग्रुप कैप्टन ए सी मिश्रा (17202), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010
- ग्रुप कैप्टन के अनन्धारमन (17882), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010

ग्रुप कैप्टन ए शाही (17887), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010

एफ (पी) शाखा

ग्रुप कैप्टन एम भट्टाचार्य (17889), प्रशासनिक, 01 अप्रैल 2010

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

वायु सेना

सं. 81, दिनांक 27 जनवरी 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदय,
निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

फ्ला लेफ्टि से स्क्वा ली के मूल रैंक पर

ए ई (एम) शाखा

एस के नामा (28312), वी जे हिरेमथ (28309), डी वी आर एन
एस पर्वतलु (28851), आर सिंह (28854), टी निशांत (28311), आर
मणि (28862), के सी सैनज कुमार (28853), डी रविकिरण (28308),
सी एम माहेकर (28321), ए शुक्ला (28318), एस एम कलसकर
(28319), सी एच हेमंत चन्द्र (28313), एस सतीश (28314), एस
एम सिन्धीर (28315), एस सतीश कुमार (28316), आर डब्ल्यू थॉमस
(28317), एस वेंकटरमन (28855), डी बी मुखोपाध्याय (28852),
पुष्पेन्द्र कुमार (28857), टी राजेश कुमार (28856), ए के सिंह
(28310)--30 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

वी जग्गी (28343), आर पॉल (28342), पी अशोक (28341),
आर राणा (28337), के विजय कुमार (28336), आर के के मन्दा
(28340), ए विकास (28339), वी धनखर (28338), आर वसंत
(28335), वी एस महेश (28334), वी अग्निहोत्री (28331),
सुमित मुरुगन (28324), अमित शुक्ला (28323), एस सिंह (28322),
के एस विजय (28326), एस साई प्रसाद (28325), वी हामिल जोस
(28330), एस अरूण प्रसाद (28329), एस सुदीश (28328),
डी मिश्रा (28327), बी बी एस आनंद (28345), नरेन्द्र (28346),
पी संदीप (28347), एम आर कलैसेल्वन (28358), ए उनियाल
(28359), के एस नायर (28360), आई पुरी (28361),
बी मलिक (28348), एम बिनेश (28349), बी गोविन्द (28350),
जे कुमार (28355), ए गर्ग (28351), वी पाटिल (28352), आर राणा
(28353), ए मलकानी (28354), एस बालाजी (28356), एफ फेलिक्स
(28357), ई बालाजी (28858), आर आर मिनेजेस (28860),
आर ज्ञानप्रकाश (28859), एस सुधीर कुमार (28332), सुरेश बाबू
एम सी (28861)--30 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

वी चौधरी (27498)--26 फरवरी 2010 से प्रभावी

ए के सिंह (27718), पी धर (27720), के भट्टाचार्य (27688),
ए गुर्तु (27704), आर पाण्डे (27698)--20 दिसम्बर 2009 से
प्रभावी

ए काला (27457), आर के सिंह (27444), पी के सहरावत
(27481), टी एस नेगी (27480), जी के वर्मा (27479), वी यादव
(27478), एम तिवारी (27470), पी पंत (27469), ए हाकिम
(27468), एस कर्माकर (27467), ए मोघे (27485), ए पाटले
(27477), डी हजारिका (27474), ए के सिंह (27466), एम नौटियाल
(27465), के सिंह (27471), एस भट्ट (27473), वी उपाध्याय
(27472), पी संतरा (27455), डी के धनखर (27459), आर एन
मोहन्ती (27456), ए कृष्णन (27436), आई डब्ल्यू के जारियल
(27476), विशाल मोहन (27475), एम गर्ग (27437), जे एम बरार
(27440), पी प्रभाकरन (27439), आर कटारिया (27443), ए अग्रवाल
(27462), वी जैन (27461), ए थापा (27454), एस पचौरी (27442),
एच वी पाण्डे (27441), एम एस संधू (27451), वी डल्ल (27453),
ए बावा (27449), एस सिवाच (27448), वी भूषण (27450),
एस सूरी (27463), डी जॉय (27483), के पी सिंह (27447), डी वत्स
(27484), एस एस बारसिंग (27482), एन के सिन्हा (27458), एन
झंब (27445), ए के यादव (27446)--21 जून 2009 से प्रभावी

ए कोहली (27487)--10 जुलाई 2009 से प्रभावी

एफ रिजवी (27486)--10 जुलाई 2009 से प्रभावी

एस धनकर (27452)--22 नवंबर 2009 से प्रभावी (21 जून 2009
से प्रभावी राष्ट्रीय वरिष्ठता के साथ)

एफ (एन) शाखा

डी भाटिया (27496), डी भदौरिया (27491), एस अवस्थी
(27489), ए खन्ना (27497), जी राय (27499), एम एस अलि
(27495), आर के यादव (27494), एल नरेश (27492), एम दास
(27490)--21 जून 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

डी डी सूजा (27500)--21 जून 2009 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

पी पी पाटिल (27700), एन पी वर्मा (27694), बी जे गणेश
(27714), एस काबरा (27713), एस शर्मा (27717), आई सिंह
(27715), डी बी औताड़े (27711), एस मित्रा (27710), एस धूपकर
(27721), आर नंदा (27686), एम के छिल्लर (27701), पी वी सिंह
(27699), बी अब्राहम (27693), एम भार्गव (27692), पी राणा
(27691), एम पी सिंह (27709), वी कल्याणी (27708), एस अरोड़ा
(27707), पी के ओझा (27706), एस शर्मा (27705), यू कुमार
(27689), टी श्रीवास्तव (27687), ए गुप्ता (27724), ए एस सिंह
(27722), जी एम पालेकर (27703), ए एस मैनकर (27702), ए बी
वसाने (27697), एस प्रशांत (27696), एम भाटिया (27695),
ए त्रिपाठी (27690)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

अल्प सेवा कमीशन

प्रशासन शाखा

जे चौधरी (27555), टी राशि (27554), एन सैनी (27549), एम सिंह (27550), बी भट्टाचार्य (27552), आर सिंह (27553), एम चौधरी (27544), पी कुककुमा (27545), ए पठानिया (27546), आर दूबे (27547), एस सिधादिया (27548)--21 जून 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

आर पुरी (27556), वी डी मेनन (27557), पी सेमवाल (27561), शुभिका अरोड़ा (27560), ए सभरवाल (27559), नव चेतन (27558)--21 जून 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

आर जोशी (27566), पी पाठक (27565), एम सेंगर (27563), डी उपाध्याय (27567)--21 जून 2009 से प्रभावी

मेट शाखा

आर डिमरी (27192)--21 जून 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एस महतो (27551)--04 सितम्बर 2009 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

वी वी अभ्यंकर (27564)--01 अक्टूबर 2009 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एस पठानिया (27810)--06 जन 2010 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

एस कार (27811)--06 जन 2010 से प्रभावी

प्रशासन शाखा

एस वर्मा (27782), डी सिंह (27784), आर फहीमा अफजल (27778), एम मिश्रा (27779), एस बक्शी (27777), जी गांगुली (27781), एन कपूर (27775), ज्योत्सना रेनू (27774), डी यादव (27776), एस पॉल (27780)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

पी सक्सेना (27801), एम कुमारी (27791), आर अंगरा (27792), पी त्यागी (27793), बी सिंह (27794), बी बैनर्जी (27802), एन सहरावत (27800), यू रानी (27785), एस शर्मा (27787), अवधि (27788), बी उन्निथम (27789), एस बत्रा (27790), ई कपूरिया (27795), ए कुमारी (27799), रेशमी (27798) यू कुमारी (27797), पी चौहान (27796)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

लेखा शाखा

पी शर्मा (27808), वासवी अरोड़ा (27809), बी नित्या (27804), एन पाण्डे (27805), आर वी कौर (27806), सी गहलोत (27807), शिप्रा शर्मा (27803)--20 दिसम्बर 2009 से प्रभावी

एन विजय कुमार
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर-3(डी)

थल सेना शाखा

सं. 82, दिनांक 28 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता की आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले जनरल ओ पी मैथ्यू, एवीएसएम, एस एम, पी एच एस (एमआर-2838एफ), पीसी, 31 जुलाई 2009 अप

ले जनरल एस के शर्मा, एसएम, वीएसएम (एमआर-3814के), पीसी, 31 दिसम्बर 2009 अप

ले जनरल एन के परमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीर चक्र, वीएसएम, पीएचएस (एमआर-3364एक्स), पीसी, 30 जून 2010 अप

मे जनरल एस के वीरमानी, वीएसएम (एमआर-3563एल), पीसी, 30 जून 2009 अप

मे जनरल एम एन जी नायर (एमआर-3034वाई), पीसी, 31 अगस्त 2009 अप

ब्रिगेडियर वाई डी सिंह (एमआर-4088एम), पीसी, 30 नवम्बर 2009 अप

ब्रिगेडियर आर के जैन (एमआर-4827एन), पीसी, 31 अगस्त 2009 अप

ब्रिगेडियर के सी बेहेरा (एमआर-4503एच), पीसी, 31 जनवरी 2010 अप

कर्नल ओ पी शर्मा (एमआर-4244एल), पीसी, 31 मार्च 2010 अप

कर्नल एम डी लोकनाथ (एमआर-4415एल), पीसी, 31 मार्च 2010 अप

कर्नल आर एन कोठारी (एमआर-4037वाई), पीसी, 31 अगस्त 2008 अप

कर्नल एल के पटनायक (एमआर-6315ए), पीसी, 31 दिसम्बर 2009 अप

कर्नल वी जे रेड्डी (एमआर-4119एफ), पीसी, 31 जनवरी 2010 अप

कर्नल एस पी मिश्रा (एमआर-4552एल), पीसी, 31 दिसम्बर 2009 अप

कर्नल देवेन्द्र कुमार (एमआर-4637एफ), पीसी, 31 दिसम्बर 2009 अप

कर्नल बी एम दाश (एमआर-4122एफ), पीसी, 31 अक्टूबर 2009 अप

कर्नल ए के मारिया (एमआर-3347एक्स), पीसी, 31 अक्टूबर 2009 अप

कर्नल एस चट्टोराज (एमआर-7125ए), पीसी, 31 अक्टूबर 2009 अप

कर्नल एस बेहेरा (एमआर-4108पी), पीसी, 31 जुलाई 2009 अप
कर्नल पी मोहापात्रा (एमआर-3541एम), पीसी, 31 जुलाई 2009 अप

कर्नल एस सचदेवा (एमआर-3634एफ), पीसी, 31 मार्च 2009 अप

कर्नल राम सरूप (एमआर-4498एच), पीसी, 30 जून 2009 अप
कर्नल पी सी महापात्रा (एमआर-3976पीएल), पीसी, 30 जून 2009 अप

कर्नल जेड यू खान (एमआर-3928पी), पीसी, 28 फरवरी 2009 अप

ले जनरल वाई सिंह, पीवीएसएम, वीएसएम, पीएचएस (एमआर-02475एच), पीसी, 31 मई 2009 (अप)

ले जनरल एस के कौल, वीएसएम (एमआर-03373वाई), पीसी, 30 नवम्बर 2008 (अप)

कर्नल डी के गुण्ड (एमआर-03664वाई), पीसी, 30 जून 2008 (अप)

कर्नल एम पी सक्सेना (एमआर-03843वाई), पीसी, 30 जून 2008 (अप)

कर्नल पी के जायसवाल (एमआर-04553एन), पीसी, 30 जून 2008 (अप)

कर्नल आर एन कोठारी (एमआर-04037वाई), पीसी, 31 अगस्त 2008 (अप)

कर्नल एस सैमनोत्रा (एमआर-07123पी), पीसी, 31 अगस्त 2008 (अप)

कर्नल ए सी महापात्रा (एमआर-04231एन), पीसी, 28 फरवरी 2009 (अप)

कर्नल वी डी चरण (एमआर-03842फ), पीसी, 31 जनवरी 2009 (अप)

कर्नल एस एस साहसी (एमआर-04127ए), पीसी, 28 फरवरी 2009 (अप)

कर्नल के एस संधू (एमआर-04517एच), पीसी, 30 अप्रैल 2009 (अप)

कर्नल पी के धागे (एमआर-04041एफ), पीसी, 30 अप्रैल 2009 (अप)

ले. कर्नल रेखा मोहंती (एमआर-07373डब्ल्यू), पीसी, 30 अप्रैल 2009 (अप)

ब्रिगे यश पांडे

उप महानिदेशक ससेचिसे(मा स)

सेना शाखा

सं. 83, दिनांक 28 जनवरी 2011

शुद्धि पत्र

भारत के राजपत्र में दिनांक 02 जनवरी 2010 को शीर्षक "नियमित सेना, स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "मेजर से ले कर्नल" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के बदले : (आईसी-58117) जितेन्द्र डोगरा, आईसी

पढ़ा जाये : रिक्त

पी के शास्त्री

मेजर

एएमएस 8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th February 2011

ARMY BRANCH

No. 74, dated 25th January 2011—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 02 Mar 2007, on relinquishing their SSC wef 02 Mar 2007 :—

SS No., IC No., Name and Arms/Services

SS-39648, IC-65611H, Deep Chandra Malkani, AAD

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :—

The date for increments of pay—02 Mar 2002

The date for promotion—02 Nov 2002

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the GN for grant of Short Service Commissioned.

VS RANADE

Col

Col MS 7

No. 75, dated 25th January 2011—The President is pleased to confirm the under mentioned officers who were granted Short Service Commission, wef the date stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr Ms K Janhavi Milind (29163) AE(L), K Madan Kumar (29155) AE(M), Ms Punita Aswal (29160) AE(L), Ms Nitasha Bansal (29169) AE(L), Ms Deepmala Gupta (29168) AE(L), Ms DS Chauhan (29164) AE(L), Raj Mohan R (29159) AE(L), Piyush Kumar (29157) AE(L), Raghuram Palnati (29156) AE(M), Ms K Mansi Prakash (29162) AE(L), Ms P Sirisha (29165) AE(L) wef 29 Jun 2007.

VM MARDIKAR

Wg Cdr

JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 76, dated 25th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to Maj Gen (& equivalent)

B S Verma (MR-03592A), 01 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 26 May 2009

Prakash Singh (MR-03679F), 01 Mar 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Feb 2010

P P Verma (MR-04317M), 01 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2010

D S Pathania (MR-03927M), 08 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2010

A D Mathur (MR-04225A), 05 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jul 2010

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

A P Singh (MR-04418A), 10 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Jan 2010

A P Pandit (MR-04510Y), 01 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 07 Jan 2010

A P Kamath (MR-04843L), 01 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Jan 2010

M P S Sawhney (MR-03922N), 04 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Jan 2010

N C Arora (MR-04336X), 18 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 20 Jan 2009

P K Bhatnagar (MR-04068Y), 28 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 10 Jan 2010

Arun Tyagi (MR-05294H), 01 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 11 Jan 2010

C S Joshi (MR-04654F), 06 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Jan 2010

R Gourishankar (MR-03998N), 28 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 15 Jan 2010

Sanjiv Chopra (MR-04142P), 28 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 16 Jan 2010

Rakhi Singh (MR-05622L), 05 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Jan 2010

V K Srivastava (MR-04186M), 16 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 19 Jan 2010

R Brajbasi (MR-04712A), 09 Feb 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 21 Jan 2010

K V Baliga (MR-04767K), 28 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 22 Jan 2010

P Prusty (MR-04768M), 28 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 23 Jan 2010

N Srinath (MR-05096X), 28 Jan 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 25 Jan 2010

T V S Murty (MR-04347K), 09 Jun 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2010

H S Minhas (MR-05097A), 08 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jul 2010

H C Pathak (MR-04803K), 01 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jul 2010

A K Dhar (MR-04808H), 08 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jul 2010

Mukti Sharma (MR-05788M), 19 Jul 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 05 Jul 2010

T K Saha (MR-05598A), 15 Aug 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 08 Jul 2010

D K Jain (MR-05367K), 04 Aug 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Aug 2010

U K Sharma (MR-04262N), 06 Sep 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Aug 2010

Sudir Rai (MR-04265F), 06 Sep 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Aug 2010

A K Sharma (MR-04267M), 07 Sep 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 18 Aug 2010

Lt Col to Col (Time Scale)

(MR-6292K) Lt Col TK Choudhury, 30 Jun 2010

(MR-6446L) Lt Col P Bhagat, 21 Sep 2010

(MR-6445H) Lt Col Sudhir Garg, 21 Sep 2010

(MR-6092N) Lt Col RK Jha, 23 Sep 2010

(MR-5711K) Lt Col G Mishra, 30 Sep 2010

(MR-6447N) Lt Col SK Jena, 04 Oct 2010

Lt Col to be Col by selection (& equivalent)

N S Narain (MR-06219L), 15 Sep 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Aug 2009.

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (Hr)

ARMY BRANCH

No. 77, dated 25th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Subs Col (By Time Scale)

IC No., Rank, Name, Arm and Date of Subs Rank

(IC-34563M) Lt Col AK Das, Inf, 16 Dec 2004

(IC-39778P) Lt Col AK Ghildiyal, Inf, 13 Jun 2007

(IC-40041M) Lt Col PK Sharma, ASC, 19 Dec 2009

(IC-40392F) Lt Col Khagesh Mital, AC, 12 Jun 2008

(IC-40470N) Lt Col AT Saxena, AAD, 12 Jun 2008

(IC-41190M) Lt Col AR Ashok Anand, Engrs, 18 Jun 2009

(IC-41247W) Lt Col DS Sharanappa, Engrs, 18 Jun 2009

(IC-41265Y) Lt Col Khan Mahmood, AC, 18 Jun 2009

(IC-41337X) Lt Col Prateek Joshi, AC, 18 Jun 2009

(IC-41425N) Lt Col DK Sharma, ASC, 18 Jun 2009

(IC-41719F) Lt Col Skaria Philip, AC, 17 Dec 2009

(IC-41748W) Lt Col, Neeraj Dhawan, Inf, 17 Dec 2009

(IC-41789A) Lt Col Bijay Sinha, ASC, 17 Dec 2009

(IC-41829W) Lt Col SC Naithani, AEC, 17 Dec 2009

(IC-41840P) Lt Col Ajay Mehta, 17 Dec 2009

(IC-41842A) Lt Col JP George, AEC, 17 Dec 2009

(IC-41903M) Lt Col NN Singh, Inf, 09 Jun 2010

(IC-41950K) Lt Col A Mukherji, Arty, 09 Jun 2010

(IC-41976Y) Lt Col Gautam Dar, Mech Inf, 09 Jun 2010

(IC-42050M) Lt Col M Ravindra, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42064M) Lt Col TR Sharma, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42086L) Lt Col BD Sharma, Int, 09 Jun 2010

(IC-42106N) Lt Col Apurba Samanta, AOC, 09 Jun 2010

(IC-42109F) Lt Col Vijay Singh, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42114M) Lt Col SP Shukla, Engrs, 09 Jun 2010

(IC-42118H) Lt Col Vivek Sood, Engrs, 09 Jun 2010

(IC-42147X) Lt Col DPS Ragava, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42210F) Lt Col CB Sharma, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42218N) Lt Col RK Chaudhary, Mech Inf, 09 Jun 2010

(IC-42239K) Lt Col Sukhjot Singh, Engrs, 09 Jun 2010
 (IC-42246A) Lt Col RS Gehlot, AEC, 09 Jun 2010
 (IC-42256X) Lt Col Jagdish Chandra, AEC, 09 Jun 2010
 (IC-43635M) Lt Col BSV Babu, Engrs, 18 Dec 2010
 (IC-43994A) Lt Col Jasbir Singh, Engrs, 14 Jun 2010
 (IC-44001H) Lt Col Abhijit Ghosh, Engrs, 14 Jun 2010
 (IC-44009P) Lt Col GS Ghuman, Engrs, 14 Jun 2010
 (IC-44016L) Lt Col Ajit Kumar Mallik, Engrs, 14 Jun 2010
 (IC-45137Y) Lt Col AK Malik, AC, 10 Nov 2009
 (IC-45150H) Lt Col AK Singh, Guards, 10 Nov 2009
 (IC-45157M) Lt Col PPS Sidhu, AC, 10 Nov 2009
 (IC-45176X) Lt Col BB Bhatt, Mech Inf, 25 Apr 2010
 (IC-45184W) Lt Col S Chandra, Guards, 25 Apr 2010
 (IC-45192P) Lt Col SS Lalji, Engrs, 25 Apr 2010
 (IC-45233N) Lt Col Vijay Mohan J, Engrs, 25 Apr 2010
 (IC-45249Y) Lt Col AN Soni, AC, 25 Apr 2010
 (IC-45268K) Lt Col Deepak Verma, AAD, 25 Apr 2010
 (IC-381M), Lt Col Yadvindra Joshi, RVC, 02 Jan 2009

TK DAS
 Dy Dir
 MS 8A

No. 78, dated 27th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name and Arms

(IC-56169) Sandeep Singh Sidhu, EME
 (IC-56170) Preetpal Singh, Engrs
 (IC-56171) Shiv Mangal Singh, Sigs
 (IC-56172) Sandeep Mehra, Sigs

— 09 May 2010

IC No., Name, Arms/Services and Sub Lt Col wef

(IC-55389) V Nanda Kumar, Arty, 08 Jun 2009
 (IC-55595) Manish Verma, Inf, 09 Nov 2009
 (IC-55674) Arun Awasthy, Inf, 24 Apr 2010

(IC-56711) Vibhuti Maindola, Engrs, 07 Dec 2009
 (IC-57076) Kamaldeep Singh, Inf, 07 Jun 2010
 (IC-57096) Maneesh Kumar Singh, AC, 07 Jun 2010
 (IC-57152) Bhanu Pratap Singh Patwal, Engrs, 07 Jun 2010
 (IC-57168) Anil Menon, Engrs, 07 Jun 2010
 (IC-57205) Amit Rawat, Engrs, 07 Jun 2010
 (IC-58947) Dharam Vir Singh, Engrs, 12 Jun 2010
 (IC-58971) Prem Kumar Yadav, EME, 12 Jun 2010
 (IC-59020) Polash Gogoi, Sigs, 12 Jun 2010
 (IC-59030) Praveen S, Engrs, 12 Jun 2010
 (IC-59033) John Kodankandath, Engrs, 12 Jun 2010

SHORT SERVICE COMMISSION (WS)

Maj to be Lt Col

WS No., Name, Arm and Effective Date

(WS-00361) Lucky Bisht, EME, 09 Sep 2010
 (WS-00371) Swati Kulkarni, Sigs, 09 Sep 2010

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

SS No., Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised Date of Seniority for Promotion and Date of grant of Sub rank of Capt

(SS-42878) Harish Kumar Rana, Mech, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

(SS-42899) Ajeet Singh, EME, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

(SS-42928) Sandeep Singh, Mech, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

(SS-42947) Ravi Rai Bhayana, Engrs, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

(SS-42961) Charanjit Singh Ahlowalia, AOC, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

(SS-42963) Rahul Katoch, Engrs, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

(SS-42970) Sharma Kapil Kumar, Engrs, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

(SS-42972) Narendra Singh Mehra, EME, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

(SS-42998) Rohan Chatterjee, Engrs, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

(SS-43017) Abhinav Bahuguna, EME, 22 Mar 2008, SSC-85(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

PK SHASTRI
Maj
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 79, dated 27th January 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY INFANTRY JAK LI

To be Nb Sub (No. GD CAT)

Hav Sher Mohd (No. 9089866P now JC-593861H), 17 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2009)

Hav Balbir Singh (No. 9089021W now JC-593862L), 17 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010)

Hav Manzoor Ahmad Ganie (No. 9088155H now JC-593863N), 10 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010)

Hav Shabir Ahmed (No. 9088815P now JC-593864W), 08 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010)

Hav Babu Ram (No. 9088833X now JC-593865Y), 10 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010)

Hav Nasib Singh Chib (No. 9088496N now JC-593866F), 21 Apr 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010)

Hav Reshi Kumar (No. 9087314H now JC-593867K), 09 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010)

Hav Nasib Singh (No. 9089211H now JC-593868M), 10 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010)

Hav Dhan Bahadur Singh (No. 9089523Y now JC-593869P), 08 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010)

Hav Kafil Ahmed (No. 9089434A now JC-593870K), 25 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2009)

Hav Manzoor Ahmed Khandi (No. 9089350M now JC-593871M), 03 Jun 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010)

Hav Puran Chand (No. 9089646L now JC-593872P), 11 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010)

Hav Sardar Singh (No. 9089727L now JC-593873X), 11 May 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010)

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Kalu Singh (No. 2883626F now JC-470610X), 20 Apr 2010/S-29 Dec 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Hav/Clk Arjun Kumar Misra (No. 2886109P now JC-470611A), 30 Jan 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav/Clk Sant Kumar Mishra (No. 2886113X now JC-470612H), 01 Jan 2010

Hav Mohmad Ikbal (No. 2883264L now JC-470613L), 19 Jan 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Nasim Ahmad (No. 2883268F now JC-470614N), 19 Jan 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Harphool Singh (No. 2885309Y now JC-470615W), 26 Jan 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Jai Singh (No. 2884809K now JC-470616Y), 01 Jan 2010

Hav Nabab Singh (No. 2885378P now JC-470617F), 08 Mar 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Husain Khan (No. 2885414P now JC-470618K),
08 Mar 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Jan Mohd (No. 2885810L now JC-470619M),
08 Mar 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Bhagwan Singh Mertiya (No. 2884927X now JC-470620F), 01 Jan 2010

Hav Brijesh Kumar Singh (No. 2884936Y now JC-470621K), 01 Jan 2010

Hav Vijender Singh (No. 2884970Y now JC-470622M),
01 Jan 2010

Hav Ajmat Khan Kureshi (No. 2883164A now JC-470623P), 10 Feb 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Ennash (No. 2883335F now JC-470624X), 22 Jan 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Taja Ram Choudhary (No. 3995517M now JC-470625A), 19 Jan 2010/S-01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Ishtak (No. 2883312A now JC-470626H), 10 Mar 2010/S-10 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Vijender Singh (No. 2886066L now JC-470627L),
08 Mar 2010/S-27 Jan 2010*

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Charanjit Singh (No. 3389287W now JC-500217M),
26 Mar 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Swaran Singh (No. 3390168M now JC-500218P),
04 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kulbir Singh (No. 3388394L now JC-500219X),
07 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Harjit Singh (No. 3388472X now JC-500220M),
15 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhwant Singh (No. 3388402Y now JC-500221P),
06 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Harjeet Singh (No. 3388605H now JC-500222X),
22 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gurinder Singh (No. 3390878K now JC-500223A),
21 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mohinder Pal Singh (No. 3390263Y now JC-500224H), 14 May 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

THE SIKH LI

To be Naib Sub (GD)

Hav Amrit Singh (No. 4469939N now JC-509926H),
07 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2009)

Hav Gurmail Singh (No. 4471234A now JC-509927L),
26 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 23 Oct 2009)

Hav Bhola Singh (No. 4468098K now JC-509928N), 13 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 11 Nov 2009)

Hav Manjit Singh Sidhu (No. 4469991W now JC-509929W), 21 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 02 Feb 2010)

Hav Tarsem Singh (No. 4469998A now JC-509930L),
21 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 02 Feb 2010)

Hav Sukhdev Singh (No. 4471407M now JC-509931N),
26 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 09 Feb 2010)

Hav Ajmer Singh (No. 4467711Y now JC-509932W),
12 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Mar 2010)

Hav Surinder Singh (No. 4467457A now JC-509933Y),
21 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 11 Mar 2010)

Hav Bachittar Singh (No. 4467610L now JC-509934F),
27 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 23 Mar 2010)

Hav Randhir Singh (No. 4469136F now JC-509936M),
10 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Apr 2010)

Hav Tarlochan Singh (No. 4467858P now JC-509937P),
12 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Apr 2010)

Hav Maninder Singh (No. 4469007F now JC-509938X),
18 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Apr 2010)

Hav Inderjit Singh (No. 4466744X now JC-509939A),
13 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Apr 2010)

Hav Puran Singh (No. 4467236N now JC-509940P), 25 May
2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Apr 2010)

Hav Pirthi Singh (No. 4468077N now JC-509941X), 17 May
2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Apr 2010)

Hav Dhira Singh (No. 4468250M now JC-509942A), 24 May
2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Apr 2010)

Hav Resham Singh (No. 4468298A now JC-509943H),
05 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 11 Apr 2010)

To be Naib Subedar (Clk) (SD)

Hav(Clk) Narendra Singh (No. 4468906W now JC-
509935K), 10 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD)
with effect from 01 Apr 2010)

Hav(Clk) Jaibir Singh (No. 4468907Y now JC-509944L),
01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD)
with effect from 01 May 2010)

Hav(Clk) Dinesh Kumar Sen (No. 4468908F now JC-
509945N), 01 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD)
with effect from 01 Jun 2010)

Hav(Clk) Pattan KRT Khan (No. 4468925F now JC-
509946W), 01 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD)
with effect from 01 Jun 2010)

5 GR (No. FF)

To be Nb Sub (Clk/SD) and Nb Sub (GD)

Hav Suraj Gurung (No. 5451672X now JC-617979L),
01 Apr 2010

Hav/Clk SK Sultan (No. 5450266L now JC-617980A),
01 Apr 2010

Hav/Clk Kalaskar Ashok Kumar Pandurang
(No. 15359791L now JC-617981H), 01 May 2010

Hav Tek Bahadur Thapa (No. 5450747X now JC-
617982L), 01 May 2010

Hav Khadak Bahadur Pun (No. 5450750X now JC-
617983N), 01 May 2010

To be Nb Sub (GD)

Hav Mekh Bahadur Gurung (No. 5451654P now JC-
617974M), 17 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gagan Singh Gurung (No. 5450515Y now JC-617975P), 01 Apr 2010

Hav Min Bahadur Thapa (No. 5450625N now JC-617976X), 04 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Madhu Kumar Shrestha (No. 5450631F now JC-617977A), 04 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Lub Bahadur Dhega (No. 5450645F now JC-617978H), 17 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Rohtash Singh Kundu (No. 3182040H now JC-490539W), 19 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jay Hind (No. 3182103A now JC-490540L), 01 May 2010

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Kheta Ram (No. 15359246F now JC-490541N), 08 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Raghubeer Prasad Gujar (No. 15359266P now JC-490542W), 01 Apr 2010

Hav Clk Patel Amit Bhai Babu Bhai (No. 15359280F now JC-490543Y), 23 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Kamlesh Thakur (No. 15359504W now JC-490544F), 01 May 2010

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Vinod Kumar (No. 3991397F now JC-521159F), 23 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ravi Kumar (No. 3989018F now JC-521160W), 23 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Balwant Singh (No. 3987963Y now JC-521161Y), 29 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Sukh Dev Raj (No. 3988013W now JC-521162F), 03 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ravinder Kumar (No. 3987352K now JC-521163K), 10 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Hukam Chand (No. 3987683L now JC-521167A), 21 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Janak Singh (No. 3986727L now JC-521168H), 01 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Surinder Kumar Sharma (No. 3986996X now JC-521169L), 24 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Sohan Lal (No. 3988560L now JC-521170A), 28 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 3989391F now JC-521171H), 28 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagdev Rathaur (No. 3989390Y now JC-521172L), 28 Apr 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar (No. 3989570F now JC-521173N), 28 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gian Chand (No. 3988687N now JC-521174W),
08 Jun 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Apr
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar (No. 3987846N now JC-521175Y),
12 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jagtar Singh (No. 3987849F now JC-521176F),
01 May 2010

Hav Tilak Raj Chaudhery (No. 3987889H now
JC-521177K), 01 May 2010

Hav Mohan Lal Mandlia (No. 3987902F now
JC-521178M), 01 May 2010

Hav Joginder Singh (No. 3987670N now JC-521179P),
01 Jun 2010

Hav Subash Chander (No. 4359242X now JC-521180K),
01 Jun 2010

To be Nb Sub Clerk (SD)

Hav/Clk Padawal Chandra Kant Bhausaheb
(No. 15361678P now JC-521164M), 03 May 2010+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Subhash Chander (No. 3989302X now JC-
521181M), 01 Jun 2010

Hav/Clk Jaya Choudhary (No. 15361908X now JC-
521165P), 01 Jun 2010

To be Nb Sub

Hav Ashwinder Kumar (No. 3988352W now JC-
521140H), 28 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Sep 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Rajinder Kumar (No. 3988503K now JC-521141L),
28 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Madan Lal (No. 3987998P now JC-521142N),
03 May 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
28 Dec 2009 without effect on pay & allowances)

Hav Naresh Kumar (No. 3996698P now JC-521143W),
28 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Mar 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Harnam Singh (No. 3989351A now JC-521144Y),
28 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Mar 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Manjeet Paul (No. 3989444P now JC-521145F),
04 May 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
14 Mar 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Vinod Kumar Guleria (No. 3989493K now
JC-521146K), 28 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
28 Mar 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Chain Singh (No. 3987709P now JC-521147M),
30 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Yudhvir Singh (No. 3987929Y now JC-521148P),
23 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Rajinder Singh (No. 3987448M now JC-521149X),
01 Apr 2010+

Hav Om Parkash (No. 3989581N now JC-521150M),
28 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Sartaj Singh (No. 3989594L now JC-521151P),
28 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Sansar Singh (No. 3989599K now JC-521152X),
28 Apr 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Pawan Kumar (No. 3990026M now JC-521153A),
14 May 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 3990203F now JC-521154H),
03 May 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Kuldip Singh (No. 3990272X now JC-521155L),
09 May 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Pawan Singh (No. 3988007H now JC-521156N),
10 May 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Bhupinder Singh (No. 3987938A now JC-521157W),
03 May 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Baljit Singh (No. 3990670Y now JC-521158Y),
01 May 2010

THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ram Datt Yadav (No. 4181526X now JC-540777F),
27 Apr 2010/01 Apr 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Sita Ram Yadav (No. 4183212P now JC-540778K),
01 Apr 2010

Hav Jitendra Singh (No. 4182471L now JC-540775W),
24 Mar 2010/19 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 19 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Soban Singh (No. 4181911F now JC-540776Y),
01 Apr 2010

Hav Narottam (No. 4181413P now JC-540779M),
23 Apr 2010/26 Mar 2010*

*(Gtd Notional eniority in the rank of Nb Sub with effect
from 26 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Hayad Singh (No. 4181765M now JC-540780F),
01 May 2010

Hav Musn Hari Ram (No. 4181558A now JC-540781K),
03 May 2010/01 Mar 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Musn Basant Ram (No. 4181320A now JC-
540782M), 07 May 2010

Hav L Nekhini (No. 14703379H now JC-590263A),
03 May 2010/11Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 11 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Sundar Lal (No. 14702118H now JC-590264H),
13 Apr 2010/01 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Karong Ngamba Kom (No. 14703511X now
JC-590265L), 13 Apr 2010/23 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 23 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Krishna Bahadur Shrestha (No. 14702123N now
JC-590266N), 13 Apr 2010/01 Apr 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Bhoop Singh (No. 4181406Y now JC-540783P),
19 Apr 2010/26 May 2009*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 26 May 2009 without effect on pay & allces)

Hav Mahesh Chandra (No. 4182018N now JC-540784X),
13 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Bishan Singh (No. 4181405W now JC-540785A),
08 Mar 2010/01 Jan 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Mahesh Chandra (No. 4181457M now JC-540786H),
08 Mar 2010/01 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Mahendra Singh (No. 4182150N now JC-540787L),
10 May 2010/01 Apr 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Banshidhar Kapri (No. 4181458P now JC-540788N),
08 Apr 2010/01 Apr 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Indra Raj Singh (No. 4180247A now JC-540789W),
01 May 2010/02 Apr 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 02 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Nandan Singh (No. 4181798X now JC-540790L),
01 May 2010

Hav Nand Kishor (No. 4182034L now JC-540791N),
01 May 2010

Hav Jagdish Singh (No. 4182070W now JC-540792W),
01 May 2010

Hav Lalit Mohan Bora (No. 4184120P now JC-540793Y),
01 May 2010

Hav Kirti Ballabh (No. 4180590H now JC-540794F),
01 May 2010

Hav Daulat Singh (No. 4180658Y now JC-540795K),
01 May 2010

Hav Shamsheer Singh (No. 4180317H now JC-540796M),
04 May 2010/01 May 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 May 2010 without effect on pay & allces)

Hav Naresh Chand (No. 4180380H now JC-540797P),
04 May 2010/01 May 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 May 2010 without effect on pay & allces)

Hav Nawab Singh Kushwah (No. 4180963W now JC-
540798X), 04 May 2010/01 May 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 May 2010 without effect on pay & allces)

Hav Jay Pal Singh (No. 4183629P now JC-540799A),
05 May 2010/01 May 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 May 2010 without effect on pay & allces)

Hav Kripal Singh (No. 4181294K now JC-540800K),
01 Apr 2010

Hav Girish Chandra Tewari (No. 4181609H now JC-
540801M), 16 Apr 2010/01 May 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Om Prakash Yadav (No. 4182155M now JC-
540802P), 21 Apr 2010/01 May 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Puran Singh Rawal (No. 4182680H now JC-
540803X), 24 May 2010/01 Apr 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Sarvesh Singh (No. 4181570F now JC-540804A),
28 May 2010/10 May 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 10 May 2010 without effect on pay & allces)

Hav Raj Kumar (No. 4182766F now JC-540805H), 19 May
2010/01 May 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 May 2010 without effect on pay & allces)

Hav Gopal Swaroop Joshi (No. 4181624X now JC-
540806L), 04 Jun 2010/01 Jun 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Jun 2010 without effect on pay & allces)

Hav Trilok Chandra (No. 4182404A now JC-540807N),
01 Jun 2010

THE NAGA REGIMENT

Hav Denash Prasad (No. 14702105L now JC-590267W),
21 May 2010/01 Feb 2010*

*(Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub with
effect from 01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

THE MARATHA LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Thombre Mhatardeo Bhimaji (No. 2783821K now
JC-460182W), 23 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
25 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Hav Barge Satish Vishnu (No. 2790576P now JC-
460183Y), 23 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Dahale Anna Krishnarao (No. 2791102A now
JC-460184F), 31 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
18 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Injal Rajendra Vishnu (No. 2789398L now
JC-460185K), 23 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from wef
01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Mahesh Desai (No. 2788750X now JC-460186M),
31 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Jagadale Kumar Dnyandeo (No. 2789118M now
JC-460187P), 20 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
14 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Ghorpade Nawanath Shivaram (No. 10119504P
now JC-460188X), 23 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from wef
12 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Prakash Naik (No. 2785302A now JC-460189A),
23 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
12 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav P Vijay Kumar (No. 2788637H now JC-460190P),
25 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 May 2010 without effect on pay & allces)

Hav Patil Bharat Vishnu (No. 2788865L now JC-
460191X), 04 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2010 without effect on pay & allces)

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD) Brusabha Pandey (No. 2783198Y now
JC-460192A), 14 Jun 2010

To be Nb Sub (GD)

Hav Ranjit B Bhoite (No. 2787502P now JC-460172M),
22 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
17 Jul 2009 without effect on pay & allces)

Hav Rawool Santosh Laxman (No. 2788864H now JC-
460173P), 16 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
14 Sep 2009 without effect on pay & allces)

Hav Rabendra Prasad Patel (No. 2787792X now
JC-460174X), 08 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Shabu A (No. 2787870K now JC-460175A), 20 May
2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
19 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Gaikwad Venket Limbraj (No. 2785663Y now
JC-460176H), 30 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Shamlal Sharma (No. 2784806F now JC-460177L),
22 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
07 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Abhange Sanjay Harichandra (No. 2787412N now
JC-460178N), 22 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Vikas Hindalgekar (No. 2788236N now
JC-460179W), 09 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
09 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Saidali Nuppidiyan (No. 2788308M now
JC-460180L), 09 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
09 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Lande Bajarang Balkrishna (No. 2788539H now
JC-460181N), 22 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
19 Mar 2010 without effect on pay & allces)

THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD/Clk)

Hav Karma Toppo (No. 4267764N now JC-560327L),
01 Apr 2010/01 Sep 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Sep 2009 without effect on pay & allces)

Hav Mathias Lakra (No. 4270406N now JC-560328N),
02 Apr 2010/01 Jan 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Uikey Shobhilal Hiranman (No. 4266379X now JC-
560329W), 08 Apr 2010/03 Jan 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
03 Jan 2010 without effect on pay & allces)

Hav Dharam Deo Singh (No. 4267838X now JC-
560330L), 26 Mar 2010/01 Feb 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Bonifas Xalxo (No. 4270451A now JC-560331N),
02 Apr 2010/07 Feb 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
07 Feb 2010 without effect on pay & allces)

Hav Binod Kumar Singh (No. 4265948N now JC-
560332W), 01 Apr 2010

Hav Anil Barla (No. 4270815F now JC-560333Y),
03 Apr 2010/01 Apr 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Binay Kumar Singh (No. 4267538W now JC-
560334F), 01 Apr 2010

Hav Anil Kumar Singh (No. 4267709X now JC-
560335K), 01 Apr 2010

Hav Hari Ram Taram (No. 4270515A now JC-560336M),
01 Apr 2010

Hav Birendra Pradhan (No. 4266821X now JC-560337P),
01 Apr 2010

Hav Prasanna Kumar Pradhan (No. 4266822A now JC-
560338X), 01 Apr 2010

Hav/Clk Faiz Mohamad (No. 4269318L now JC-
560339A), 01 Apr 2010

To be Nb Sub (GD)

Hav Snatan Munda (No. 4269554M now JC-560340P),
12 Apr 2010/23 Sep 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
23 Sep 2009 without effect on pay & allces)

Hav Kalipad Sardar (No. 4267576M now JC-560341X),
11 Apr 2010/18 Oct 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
18 Oct 2009 without effect on pay & allces)

Hav Ashnandan Ram (No. 4267040W now JC-560342A),
13 Apr 2010/18 Dec 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
18 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Hav Prem Prakash Tiru (No. 4268616P now JC-
560343H), 11 Apr 2010/23 Dec 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
23 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Hav Dharendra Tiwari (No. 4266495A now JC-560344L),
11 Apr 2010/01 Mar 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Mohan Singh (No. 4266914M now JC-560345N),
12 Apr 2010/01 Mar 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Gopal Kumar Singh (No. 4268362H now JC-
560346W), 10 Apr 2010/01 Mar 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Iswar Chandra Mallick (No. 4270007K now JC-
560347Y), 12 Apr 2010/01 Mar 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Budhman Oraon (No. 4267622W now JC-560348F),
27 Apr 2010/01 Apr 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Ajaya Kumar Sahoo (No. 4267661P now JC-
560349K), 27 Apr 2010/01 Apr 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Bimal Kumar Singh (No. 4267847Y now JC-
560350Y), 01 Apr 2010

Hav Lukas Dahanga (No. 4268471P now JC-560351F),
01 Apr 2010

Hav Harsan Dang (No. 4270233F now JC-560352K),
13 Apr 2010/01 Apr 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Lalan Singh (No. 4268265L now JC-560353M),
01 May 2010

Hav Umesh Singh (No. 4265974P now JC-560354P),
21 Apr 2010/01 Jan 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jan 2010 without effect on pay & allces)

| | |
|--|---|
| Hav Birendra Kumar Singh (No. 4267531M now JC-560355X), 13 Apr 2010/01 Jan 2010(S)* | Hav Mani Kumar Tamang (No. 9418631M now JC-634900N), 01 Jan 2010 |
| *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2010 without effect on pay & allces) | Hav Judda Kumar Rai (No. 9418546K now JC-634907X), 01 Jan 2010 |
| Hav Bhuwneshwar Singh (No. 4266500A now JC-560356A), 12 Apr 2010/01 Mar 2010(S)* | Hav Bhupal Rai (No. 9418573N now JC-634908A), 13 Jan 2010 |
| *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2010 without effect on pay & allces) | (Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2010 without effect on pay & allces) |
| Hav Rajesh Baxla (No. 4269509A now JC-560360H), 03 Jun 2010/01 Jan 2010(S)* | Hav Milan Pradhan (No. 9418806K now JC-634909H), 01 Jan 2010 |
| *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2010 without effect on pay & allces) | Hav Mem Kumar Rai (No. 9418898F now JC-634910X), 01 Jan 2010 |
| Hav Yackub Xalxo (No. 4270582L now JC-560361L), 10 May 2010/01 Jan 2010(S)* | Hav Harka Bahadur Limbu (No. 9418903F now JC-634911A), 19 Jan 2010 |
| *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2010 without effect on pay & allces) | (Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2010 without effect on pay & allces) |
| Hav Mahale Sambhaji Ziparu (No. 4266124X now JC-560362N), 07 Jun 2010/01 Apr 2010(S)* | Hav Bharat Rai (No. 9419147M now JC-634912H), 01 Jan 2010 |
| *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay & allces) | Hav Phauda Singh Rai (No. 9419729M now JC-634913L), 23 Jan 2010 |
| Hav Jaishankar Mishra (No. 4266786A now JC-560363W), 13 Jun 2010/25 Apr 2010(S)* | (Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2010 without effect on pay & allces) |
| *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25 Apr 2010 without effect on pay & allces) | Hav Mohan Prasad Limbu (No. 9420057X now JC-634914N), 16 Mar 2010 |
| Hav Satendra Oraon (No. 4268118H now JC-560364Y), 26 Jun 2010/05 May 2010(S)* | (Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2009 without effect on pay & allces) |
| *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 05 May 2010 without effect on pay & allces) | Hav Dilli Ram Limbu (No. 9419173N now JC-634915W), 09 Mar 2010 |
| Hav Tapan Kumar Chakra (No. 4268504P now JC-560365F), 17 Jun 2010/01 Jun 2010(S)* | (Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 26 Jan 2010 without effect on pay & allces) |
| *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2010 without effect on pay & allces) | Hav Harka Raj Rai (No. 9419009L now JC-634916Y), 26 Feb 2010 |
| Hav Bijoy Tirky (No. 4270818P now JC-560366K), 01 Jun 2010 | (Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2010 without effect on pay & allces) |
| 11 GR | Hav Surya Bahadur Rai (No. 9418784W now JC-634917F), 02 Mar 2010 |
| To be Nb Sub | (Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2010 without effect on pay & allces) |
| Hav (Clk) Ram Kumar (No. 9418338P now JC-634898F), 01 Dec 2009 | |

Hav Roshan Golay (No. 9418674F now JC-634918K),
01 Mar 2010

Hav Ram Prasad Gautam (No. 9418766N now JC-634919M), 05 Mar 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Hav Dhan Prasad Rai (No. 9418886M now JC-634920F),
01 Apr 2010

Hav Priti Man Rai (No. 9419189Y now JC-634921K),
01 Apr 2010

Hav Pitamber Limbu (No. 9418786F now JC-634922M),
01 Apr 2010

Hav Gyan Bahadur Rai (No. 9418939A now JC-634923P), 01 Apr 2010

Hav Udaya Kumar Limbu (No. 9418922M now JC-634924X), 01 Apr 2010

Hav Haidip Rai (No. 9418974H now JC-634925A),
22 Apr 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

JAK RIF

To be Subs Nb Sub (GD)

Hav Kulbir Singh (No. 4359241P now JC-581099F),
12 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 20 Apr 2010)

Hav Satish Kumar (No. 13752466K now JC-581100L),
01 May 2010*

Hav Vir Karan (No. 13752506A now JC-581101N),
01 May 2010

Hav Des Raj (No. 13751320K now JC-581102W),
07 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 01 May 2010)

Hav Hem Raj (No. 13751343L now JC-581103Y),
15 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 01 May 2010)

Hav Devinder Singh (No. 13751677A now JC-581104F),
07 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 01 May 2010)

Hav Uttam Chand (No. 13752414N now JC-581105K),
12 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 01 May 2010)

Hav Megh Nath (No. 13752486X now JC-581106M),
07 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 01 May 2010)

Hav Saran Dass (No. 13752718L now JC-581107P),
01 May 2010

Hav Gajjan Singh (No. 13750773H now JC-581108X),
27 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 14 May 2010)

Hav Prem Bahadur Chettri (No. 13751446K now JC-581109A), 10 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 15 May 2010)

Hav Ab Rashid Kalgan (No. 13751609M now JC-581110P), 01 Jun 2010

Hav Prakash Chand Chandel (No. 13752579M now JC-581111X), 01 Jun 2010

Hav Madan Lal (No. 13752583P now JC-581112A),
01 Jun 2010

Hav Roop Lal (No. 13751183W now JC-581113H),
02 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 01 Jun 2010)

Hav Pradeep Kumar (No. 13752362H now JC-581114L),
03 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 01 Jun 2010)

Hav Shanti Sarup (No. 13752363L now JC-581115N),
03 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 01 Jun 2010)

Hav Santokh Singh (No. 13751431F now JC-581116W),
01 Jun 2010

Hav Chaman Lal (No. 13752365W now JC-581117Y),
03 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces with effect from 01 Jun 2010)

Hav Mohd Rafik (No. 13752963N now JC-581118F),
01 Jun 2010

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Tirath Singh Gusain (No. 4070675W now JC-
530851K), 22 May 2010/01 Oct 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Oct 2009 without effect on pay & allces)

Hav Uttam Singh (No. 4070927X now JC-530852M),
22 May 2010/31 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
31 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Bhupendra Singh Bohra (No. 4070976A now JC-
530853P), 22 May 2010/31 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
31 Mar 2010 without effect on pay & allces)

Hav Manohari Lal Sati (No. 4071837H now JC-
530854X), 12 May 2010/01 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Pradeep Singh Rawat (No. 4071005F now JC-
530855A), 22 May 2010/01 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Birendra Singh Negi (No. 4071629N now JC-
530856H), 22 May 2010/01 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Dinesh Singh (No. 4070491X now JC-530857L),
04 May 2010/01 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Ravindra Singh (No. 4070138L now JC-530858N),
01 Apr 2010

Hav Kamal Singh (No. 4071208L now JC-530859W),
07 Jun 2010/02 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
02 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Hira Singh (No. 4071631L now JC-530860L),
07 Jun 2010/02 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Apr
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Roop Ram (No. 2884448W now JC-530861N),
22 May 2010/07 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Apr
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Jagmohan Singh (No. 4069648A now JC-530864F),
01 May 2010

Hav Amar Dev (No. 4070101K now JC-530865K),
29 May 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Satendra Singh Bisht (No. 4067489P now JC-
530866M), 07 Jun 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Darshan Singh (No. 4069979F now JC-530867P),
05 May 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Chinta Singh (No. 4072165N now JC-530868X),
07 Jun 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Mahabir Singh (No. 4069530Y now JC-530869A),
12 May 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Satish Singh (No. 2884791Y now JC-530870P),
10 May 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Dalbeer Singh (No. 4071644H now JC-530871X),
22 May 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Darmiyan Singh (No. 4070714K now JC-530872A),
03 May 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 4070801X now JC-530873H),
03 May 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Mohan Singh (No. 4069598A now JC-530874L),
01 May 2010

Hav Kundan Singh Jangwan (No. 4069600M now JC-
530875M), 01 May 2010

Hav Rajendra Singh, SM (No. 4069603A now JC-
530876W), 01 May 2010

Hav Amar Singh (No. 4070587A now JC-530877Y),
01 Jun 2010

Hav Dilwar Singh (No. 4070003K now JC-530878F),
04 Jun 2010/01 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Umrao Singh (No. 4070241W now JC-530879K),
01 Jun 2010

Hav Govind Singh Negi (No. 4070813M now JC-
530880Y), 01 Jun 2010

Hav Gyan Singh (No. 4070161Y now JC-530881F),
01 Jun 2010

To be Nb Sub/Clk (SD)

Hav/Clk (SD) Madan Lal Rathore (No. 4069918K now
JC-530862W), 25 May 2010/01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2010 without effect on pay & allowances)

Hav/Clk (SD) Avtar Singh Randhawa (No. 4070746M
now JC-530863Y), 01 My 2010

Hav Jayendra Singh (No. 4069619L now JC-530823X),
01 Dec 2009

Hav Mahender Singh (No. 4070112W now JC-530824A),
29 Mar 2010/01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Satendra Singh (No. 4069545F now JC-530825H),
07 Feb 2010

Hav Soban Singh (No. 4069898F now JC-530827N),
15 Mar 2010/01 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Chandi Prasad (No. 2886122Y now JC-530828W),
12 Apr 2010/14 Mar 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Mar
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Kalam Singh (No. 4068699F now JC-530832Y),
01 Apr 2010

Hav Madan Singh (No. 4069753W now JC-530833F),
01 Apr 2010

Hav Vijay Singh (No. 4068630X now JC-530834K),
01 Apr 2010

Hav Satpal Singh (No. 4069907X now JC-530835M),
01 Apr 2010

Hav Jalam Singh (No. 4068756X now JC-530836P),
15 Apr 2010/01 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Rajbar Singh Rawat (No. 4069139F now JC-
530837X), 01 Apr 2010

Hav Hari Singh (No. 4069974H now JC-530838A),
01 Apr 2010

Hav Madan Singh (No. 2889054F now JC-530839H),
12 Apr 2010/01 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Mahendra Singh Rawat (No. 4072001X now JC-
530840X), 01 Apr 2010

Hav Shankar Singh (No. 4072033A now JC-530841A),
01 Apr 2010

Hav Rakesh Kumar (No. 4072128A now JC-530842H),
01 Apr 2010

Hav Prem Singh (No. 3180288N now JC-530843L),
12 Apr 2010/01 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Prakash Singh (No. 4070246P now JC-530844N),
01 Apr 2010

Hav Prabeen Singh (No. 4069949K now JC-530845W),
01 Apr 2010

Hav Mababeer Singh (No. 4070301A now JC-530846Y),
01 Apr 2010

Hav Bbeer Singh (No. 4070258K now JC-530847F),
06 Apr 2010/01 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Radhe Shyam (No. 4070380A now JC-530848K),
05 Apr 2010/01 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Digamber Singh Rawat (No. 4070397N now JC-
530849M), 05 Apr 2010/01 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Pramod Kumar Kala (No. 4070695K now JC-
530850F), 01 Apr 2010

Hav/Clk (SD) Jatinder Sharma (No. 4069777A now JC-
530826L), 01 Mar 2010

Hav/Clk (SD) Indra Mohan Rawat (No. 15359129W now
JC-530829Y), 01 Apr 2010

Hav/Clk (SD) Badan Singh (No. 8032287N now JC-
530830N), 01 Apr 2010

Hav/Clk (SD) Prem Chand Mishra (No. 4069794A now
JC-530831W), 01 Apr 2010

Hav Laxman Singh (No. 4068648N now JC-530782Y),
01 Jan 2010/01 Oct 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2009 without effect on pay & allowances)

Hav Trilok Singh (No. 4071747F now JC-530783F),
05 Jan 2010/25 Oct 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Oct
2009 without effect on pay & allowances)

Hav Jaman Singh (No. 4069421M now JC-530785M),
13 Jan 2010/10 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Nov
2009 without effect on pay & allowances)

Hav Narendra Singh (No. 4069286K now JC-530786P),
01 Jan 2010/01 Dec 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2009 without effect on pay & allowances)

Hav Kuldeep Singh Rawat (No. 4069343A now JC-
530788A), 20 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Thakur Singh Negi (No. 4069477Y now JC-
530789H), 20 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Sohan Singh Rawat (No. 2888885N now JC-
530790X), 18 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Ramesh Singh Bisht (No. 4358613H now JC-
530791A), 12 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Prakash Chandra (No. 4069926H now JC-530792H),
04 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Rameshwar Prasad (No. 4070250X now JC-
530793L), 04 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay & allowances)

Hav Madan Mohan (No. 4070374M now JC-530794N),
04 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2010 without effect on pay & allowances)

Hav/Clk Harish Chandra (No. 4069243P now JC-
530784K), 01 Nov 2009

Hav/Clk Jitendra Prasad Saklani (No. 4069592Y now
JC-530787X), 05 Jan 2010/01 Jan 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef
01 Jan 2010 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub (Musn)

Hav (Musn) Gopal Singh (No. 4071838L now JC-
530795W), 01 Jan 2010

S ASHRAF
Under Secy

AIR BRANCH

No. 80, dated 27th January 2011—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be Sub Air Cmde (Flying Branch)

Rank, Name, No. Br & Date

Air Cmde (Actg) R Nambiar (16378), F (P), 02 Feb 2010
(NS-02 Mar 2009)

His name will appear below Air Cmde AI Mehta (16377), F (P) and above Air Cmde N Yadav (16399), F (P), in the Combined Gradation List

Air Cmde (Actg) PR Singh (16243), F (P), 16 Mar 2009

Air Cmde (Actg) TPS Dhillon (16215), F (P), 01 Jun 2009

Air Cmde (Actg) S Sharma (16227), F (P), 01 Jun 2009

Air Cmde (Actg) R Kapur (16054), F (P), 01 Jun 2009

Air Cmde (Actg) HJ Walia (16418), F (N), 01 Jun 2009

Air Cmde (Actg) RD Mathur (16772), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) TP Singh (16781), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) RA Maslekar (16785), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) AS Butola (16789), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) A Tiwari (16806), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) IP Vipin (16829), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) TD Joseph (16964), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) S Mohan (16966), F (P), 23 Dec 2009
(NS-01 Sep 2009)

Air Cmde (Actg) M Fernandez (16967), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) P Bhatt (16970), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) A Dev (16972), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) VR Chaudhari (16978), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) M Singh (16983), F (P), 02 Aug 2010
(NS-01 Sep 2009)

Air Cmde (Actg) A Kumar (16988), F (P), 01 Sep 2009

Air Cmde (Actg) KP Nair (17023), F (N), 01 Jan 2010

Air Cmde (Actg) VD Eshwar (16994), F (P), 01 Jan 2010

Air Cmde (Actg) A Golani (16986), F (P), 01 Jan 2010

Air Cmde (Actg) N Harish (17135), F (P), 01 Jan 2010

Air Cmde (Actg) RJ Duckworth (17136), F (P), 01 Jan 2010

Air Cmde (Actg) R Hora (17141), F (P), 01 Jan 2010

Air Cmde (Actg) NS Jamwal (17156), F (P), 01 Feb 2010

Air Cmde (Actg) K Raghavendra (17161), F (P), 15 Feb 2010

Air Cmde (Actg) K Sundarram (17163), F (P), 16 Feb 2010

Air Cmde (Actg) A Tiwari (17160), F (P), 01 Mar 2010

Air Cmde (Actg) SN Deshpande (16559), F (P), 12 Jul 2010
(NS-26 Apr 2010)

Air Cmde (Actg) S Rath (15726), F (P), 26 Apr 2010

Air Cmde (Actg) SS Kothari (16788), F (P), 03 May 2010

Air Cmde (Actg) R Isser (16968), F (P), 10 May 2010

Air Cmde (Actg) OP Tiwari (16678), F (N), 10 May 2010

Air Cmde (Actg) SC Chafekar (17013) F (P), 10 May 2010

Air Cmde (Actg) V Prakash (17149) F (P), 01 Jun 2010

To be Sub Gp Capt (Adm Branch)

Rank, Name, No. Br & Date

Gp Capt (Actg) N Krishnamurthy (Retd) (17203), Adm,
03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) MK Dixit (17205), Adm, 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) NS Vaidya (17208), Adm, 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) PK Bapat (17227), Adm, 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) BS Sabherwal (17374), Adm, 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) M Mohanta (17390), Adm, 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) MA Sridhar (17027), Adm, 16 Mar 2009
(NS-03 Nov 2008)

Gp Capt (Actg) S Roy Choudhury (17196), Adm, 01 Apr 2009
(NS-03 Nov 2008)

Gp Capt (Actg) D Victor (17198), Adm, 16 Feb 2009
(NS-03 Nov 2008)

Gp Capt (Actg) S Johri (17213), Adm, 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) R Sood (17378), Adm, 01 Apr 2009
(NS-03 Nov 2008)

Gp Capt (Actg) DV Mohbe (17484), Adm, 03 Nov 2008

Gp Capt (Actg) KR Thaakar (17488), Adm, 10 Nov 2008

Gp Capt (Actg) SK Pai (17492), Adm, 12 Jan 2009

Gp Capt (Actg) VKS Yadav (17734), Adm, 06 Apr 2009

Gp Capt (Actg) VPS Rana (17736), Adm, 06 Apr 2009

Gp Capt (Actg) R Thomas (17752), Adm, 06 Apr 2009
 Gp Capt (Actg) KC Kalita (16622), Adm, 27 Apr 2009
 Gp Capt (Actg) NS Taprial (17376), Adm, 27 Apr 2009
 Gp Capt (Actg) S Shukla (17379), Adm, 18 Jan 2010
 (NS-01 Jun 2009)

Gp Capt (Actg) RS Mehndiratta (17394), Adm, 01 Jun 2009

Gp Capt (Actg) MK Chitgupi (Retd) (17195), Adm, 26 Nov 2009 (NS-07 Sep 2009)

Gp Capt (Actg) AK Mishra (17201), Adm, 26 Oct 2009
 (NS-07 Sep 2009)

Gp Capt (Actg) J Jose (17482), Adm, 07 Sep 2009

Gp Capt (Actg) JS Bedi (17491), Adm, 07 Sep 2009

Gp Capt (Actg) CGH Khan (17494), Adm, 01 Dec 2009

Gp Capt (Actg) PS Yadav (17495), Adm, 01 Apr 2010

Gp Capt (Actg) KS Sudhakar (17510), Adm, 01 Apr 2010

Gp Capt (Actg) N Munirathnam (17733), Adm, 01 Apr 2010

Gp Capt (Actg) MDN Prasad (17741), Adm, 01 Apr 2010

Gp Capt (Actg) K Wali (17745), Adm, 01 Apr 2010

Gp Capt (Actg) AK Upadhyaya (17757), Adm, 01 Apr 2010

Gp Capt (Actg) AC Mishra (17202), Adm, 01 Apr 2010

Gp Capt (Actg) K Anantharaman (17882), Adm, 01 Apr 2010

Gp Capt (Actg) A Sahi (17887), Adm, 01 Apr 2010

Gp Capt (Actg) M Bhattacharjee (17889), Adm, 01 Apr 2010

AK SINGH
 Dy Dir Pers (Officer-2B)

AIR FORCE

No. 81, dated 27th Jan 2011—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

AE(M) BRANCH

SK Nama (28312), VJ Hiremath (28309), DVRNS Parvatalu (28851), R Singh (28854), T Nisant (28311), R Mani (28862), KC Sainaj Kumar (28853), D Ravikiran

(28308), CM Mahekar (28321), A Shukla (28318), SM Kalaskar (28319), Ch Hemanth Chandra (28313), S Sathish (28314), SM Sindeer (28315), S Sathish Kumar (28316), RW Thomas (28317), S Venkata Ramana (28855), DB Mukhopadhyay (28852), Pushpendra Kumar (28857), T Rajesh Kumar (28856), AK Singh (28310)—wef 30 Dec 2009

AE(L) BRANCH

V Jaggi (28343), R Paul (28342), P Ashok (28341), R Rana (28337), K Vijayakumar (28336), RKK Manda (28340), A Vikas (28339), V Dhankhar (28338), R Vasanth (28335), VS Mahesh (28334), V Agnihotri (28331), Sumith Murugan (28324), Amit Shukla (28323), S Singh (28322), KS Vijay (28326), S Sai Prasad (28325), V Hamil Jose (28330), S Arun Prasad (28329), S Sudeesh (28328), D Mishra (28327), BBS Anand (28345), Narender (28346), P Sandeep (28347), Mr Kalaiselvan (28358), A Uniyal (28359), KS Nair (28360), I Puri (28361), B Malik (28348), M Binesh (28349), B Govind (28350), J Kumar (28355), A Garg (28351), V Patil (28352), R Rana (28353), A Malkani (28354), S Balaji (28356), F Felix (28357), E Balaji (28858), RR Minezes (28860), R Gnanaprakash (28859), S Sudhir Kumar (28332), Suresh Babu MC (28861)—wef 30 Dec 2009

F(N) BRANCH

V Chaudhary (27498), wef 26 Feb 2010

AK Singh (27718), P Dhar (27720), K Battacharya (27688), A Gurtu (27704), R Pandey (27698)—wef 20 Dec 2009

F(P) BRANCH

A Kala (27457), RK Singh (27444), PK Sehrawat (27481), TS Negi (27480), GK Verma (27479), V Yadav (27478), M Tewari (27470), P Pant (27469), A Hakim (27468), A Moghe (27485), A Patle (27477), S Karmakar (27467), AK Singh (27466), M Nautiyal (27465), D Hazarika (27474), S Bhatt (27473), V Upadhyay (27472), K Singh (27471), DK Dhankhar (27459), RN Mohanty (27456), P Santra (27455), IWK Jarial (27476), Vishal Mohan (27475), A Krishnan (27436), JS Brar (27440), V Prabhakaran (27439), M Garg (27437), A Agarwal (27462), V Jain (27461), R Kataria (27443), S Pachauri (27442), HV Pandey (27441), A Thapa (27454), V Dhull (27453), MS Sandhu (27451), V Bhushan (27450), A Bawa (27449), S Siwach (27448), KP Singh (27447), S Suri (27463), NK Sinha (27458), D Vats (27484), D Joy (27483), AK Yadav (27446), N Jhamb (27445), SS Barsing (27482)—wef 21 Jun 2009

A Kohli (27487), wef 10 Jul 2009

F Rizvi (27486), wef 10 Jul 2009

S Dhankar (27452), wef 22 Nov 2009

(With Notional Seniority wef 21 Jun 2009)

D Bhatia (27496), D Bhadoria (27491), S Awasthi (27489), A Khanna (27497), G Raye (27499), MS Ali (27495), RK Yadav (27494), L Naresh (27492), M Das (27490)—wef 21 Jun 2009

ADM BRANCH

D D'souza (27500), wef 21 Jun 2009

F(P) BRANCH

PP Patil (27700), NP Verma (27694), BJ Ganesh (27714), S Kabra (27713), S Sharma (27717), I Singh (27715), DB Autade (27711), S Mitra (27710), S Dhupkar (27721), R Nanda (27686), MK Chhillar (27701), PV Singh (27699), B Abraham (27693), M Bhargava (27692), P Rana (27691), MP Singh (27709), V Kalyani (27708), S Arora (27707), PK Ojha (27706), S Sharma (27705), U Kumar (27689), T Srivastava (27687), A Gupta (27724), AS Singh (27722), GM Palekar (27703), AS Mainkar (27702), AB Vasane (27697), S Prashanth (27696), M Bhatia (27695), A Tripathi (27690)—wef 20 Dec 2009

SHORT SERVICE COMMISSION

ADM BRANCH

(Ms) J Chaudhary (27555), (Ms) T Rashi (27554), (Ms) N Saini (27549), (Ms) M Singh (27550), (Ms) B Bhattacharya (27552), (Ms) R Singh (27553), (Ms) M Choudhary (27544), (Ms) P Kumkuma (27545), (Ms) A Pathania (27546), (Ms) R Dubey (27547), (Ms) S Sighadia (27548), wef 21 Jun 2009

ACCTS BRANCH

(Ms) R Puri (27556), (Mrs) VD Menon (27557), (Ms) P Semwal (27561), (Ms) Shubhika Arora (27560), (Ms) A Sabharwal (27559), (Ms) Navchetan (27558) wef 21 Jun 2009

EDN BRANCH

(Ms) R Joshi (27566), (Ms) P Pathak (27565), (Mrs) M Sengar (27563), (Ms) D Upadhyaya (27567) wef 21 Jun 2009

MET BRANCH

(Ms) R Dimri (27192) w.e.f. 21 Jun 2009

ADM BRANCH

S Mahato (27551) wef 04 Sep 2009

EDN BRANCH

VV Abhyankar (27564) wef 01 Oct 2009

ADM BRANCH

S Pathania (27810) wef 06 Jan 2010

LGS BRANCH

S Kar (27811) wef 06 Jan 2010

ADM BRANCH

(MS) S Verma (27782), (MS) D Singh (27784), (MS) R Faheema Afzal (27778), (MS) M Mishra (27779), (MS) S Bakshi (27777), (MS) G Ganguly (27781), (MS) N Kapoor (27775), (MS) Jyotsna Renu (27774), (MS) D Yadav (27776), (MS) S Paul (27780)—wef 20 Dec 2009

LGS BRANCH

(MS) P Saxena (27801), (MS) M Kumari (27791), (MS) R Angra (27792), (MS) P Tyagi (27793), (MS) B Singh (27794), (MS) B Banerjee (27802), (MS) N Sehrawat (27800), (MS) U Rani (27785), (MS) S Sharma (27787), (MS) Avadhi (27788), (MS) B Unnithan (27789), (MS) S Batra (27790), (MS) E Kapuria (27795), (MS) A Kumari (27799), (MS) Reshmi (27798), (MS) U Kumari (27797), (MS) P Chauhan (27796)—wef 20 Dec 2009

ACCTS BRANCH

(MS) P Sharma (27808), (MS) Vasavi Arora (27809), (MS) B Nithya (27804), (MS) N Pandey (27805), (MS) R V Kaur (27806), (MS) C Gehlot (27807), (Mrs.) Shipra Sharma (27803)—wef 20 Dec 2009

N VIJAY KUMAR

Wing Commander

Jt. Director

Personnel Offrs 3 (D)

ARMY BRANCH

No. 82, dated 28 Jan 2011—The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Gen O P Mathew, AVSM, SM, PHS, (MR-2838F), PC, 31 Jul 2009(AN)

Lt Gen S K Sharma, SM, VSM, (MR-3814K), PC, 31 Dec 2009(AN)

Lt Gen N K Parmar, PVSM, AVSM, VrC VSM, PHS, (MR-3364X), PC, 30 Jun 2010(AN)

Maj Gen S K Virmani, VSM, (MR-3563L), PC, 30 Jun 2009(AN)

Maj Gen MNG Nair, (MR-3034Y), PC, 31 Aug 2009(AN)

Brig Y D Singh, (MR-4088M), PC, 30 Nov 2009(AN)

Brig R K Jain, (MR-4827N), PC, 31 Aug 2008(AN)

Brig K C Behera, (MR-4503H), PC, 31 Jan 2010(AN)

Col O P Sharma, (MR-4244L), PC, 31 Mar 2010(AN)

Col M D Lokanath, (MR-4415M), PC, 31 Mar 2010(AN)

Col R N Kothari, (MR-4037Y), PC, 31 Aug 2008(AN)

Col L K Patnaik, (MR-6315A), PC, 31 Dec 2009(AN)

Col V J Reddy, (MR-4119F), PC, 31 Jan 2010(AN)

Col S P Mishra, (MR-4552L), PC, 31 Dec 2009(AN)

Col Devendra Kumar, (MR-4637F), PC, 31 Dec 2009(AN)

Col B M Dash, (MR-4122F), PC, 31 Oct 2009(AN)

Col A K Maria, (MR-3347X), PC, 31 Oct 2009(AN)

Col S Chatteraj, (MR-7125A), PC, 31 Oct 2009(AN)

Col S Behera, (MR-4108P), PC, 31 Jul 2009(AN)

Col P Mohapatra, (MR-3541M), PC, 31 Jul 2009(AN)

Col S Sachdeva, (MR-3634F), PC, 31 Mar 2009(AN)

Col Ram Saroop, (MR-4498H), PC, 30 Jun 2009(AN)

Col P C Mahapatra, (MR-3976P), PC, 30 Jun 2009(AN)

Col Z U Khan, (MR-3928P), PC, 28 Feb 2009(AN)

Lt Gen Y. Singh, PVSM, VSM, PHS (MR-2475H), PC, 31 May 2009 (AN)

Lt Gen SK Kaul, VSM (MR-3373Y), PC, 30 Nov 2008 (AN)

Col DK Gund (MR-3664Y), PC, 30 Jun 2008 (AN)

Col SP Saxena (MR-3843Y), PC, 30 Jun 2008 (AN)

Col PK Jaiswal (MR-4553N), PC, 30 Jun 2008 (AN)

Col RN Kothari (MR-4037Y), PC, 31 Aug 2008 (AN)

Col S Samnothra (MR-7123P), PC, 31 Aug 2008 (AN)

Col AC Mohapatra (MR-4231N), PC, 28 Feb 2008 (AN)

Col VD Charan (MR-3842F), PC, 31 Jan 2009 (AN)

Col SS Sahasi (MR-4127A), PC, 28 Feb 2009 (AN)

Col KS Sandhu (MR-4517H), PC, 30 Apr 2009 (AN)

Col PK Dhage (MR-4041F), PC, 30 Apr 2009 (AN)

Col Rekha Mohanty (MR-7373WP), PC, 30 Apr 2009 (AN)

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (Hr)

CORRIGENDUM

No. 83, dated 28th Jan 2011—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 02 Jan 2010 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Maj to be Lt Col" the following amendment is made:—

FOR : IC-58117 JITENDRA DOGRA, AEC

READ : —BLANK—

PK SHASTRI

Maj

AMS-8B

CORRIGENDUM

No. 84, dated 28th Jan 2011—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

In Ministry of Defence Gazette Notification published in Gazette of India on 11 Sep 2010 under the heading REGULAR ARMY, PERMANENT COMMISSION for Sub Heading:—

Subs Colonel to be Subs Brig

| Against the name of | For | Read |
|-------------------------------------|-------------|------|
| IC-31061 Brig AK Mehta, 01 Mar 2008 | 01 Mar 2009 | EME |

UK UPADHYE

Brig

DDGQA (Offrs)